

Jain Anushthano – V19

Table of Contents

Mantras for Jaap and Dhyaan Anusthan	4
<i>Navkar Mantra</i>	<i>4</i>
<i>Pancha Kalyanak Mantra.....</i>	<i>5</i>
<i>Diwali Jaap Mantra.....</i>	<i>5</i>
Stutis for Darshan Anusthan	6
<i>Stutis explaining the importance of Darshan.....</i>	<i>6</i>
Darshanam deva devasya.....	6
Prabhu darishan sukh sampada.....	6
Jey drishti prabhu darshan kare tey.....	6
Saras shanti sudha rasa sagaram	7
<i>Arihant Guna Stutis</i>	<i>7</i>
Arahanto bhagvanta indra mahita	7
Moksha margasya netaaram	7
Adeshwarji - Tubhyam namastri-bhuvan	8
Parshwanathji - Dekhi mukhadu parshwa	8
Mahavir Swami - Chhey pratima mahoharini.....	8
Mahavir swami - Veer sarva sura surendra mahito.....	9
<i>Dohas recited during Pradakshina.....</i>	<i>9</i>
Kaal anaadi ananta thi.....	9
Ek eku dagalu bharey	10
Dravya pooja.....	12
<i>Dohas for Anga pooja.....</i>	<i>12</i>
Jal pooja.....	12
Chandan pooja	13
Nav anga pooja.....	13
Pushpa pooja.....	14
<i>Dohas for Agra Pooja.....</i>	<i>15</i>
Dhoop pooja	15
Deepak pooja	15
Chamara.....	16
Darpan pooja	16
Aksata pooja	16
Swastik pooja.....	16
Naivedya pooja.....	17
Fal pooja	17
Bhaav pooja (Chaityavandan).....	18
<i>Sutras and method for Chaityavandan</i>	<i>18</i>
Sakal kushal valli.....	18
Jam kinchi.....	18
Namatthunam	18
Javanti cheiam	20
Javanta ke vi sahu.....	20
Namo-arhata	20
Jaya viyaraya	20
Arihanta cheyanam	21

Avyo sharney tamara	22
Chaityavandan Procedure	23
<i>General Chaityavandan</i>	24
Chaityavandan: Tuj murti ne nirakhava.....	24
Stavan: Bhaav bhini vandana.....	24
Thoye: Kallan-kandam	25
<i>Adeshwarji's Chaityavandan</i>	27
Chaityavandan: Adeshwar arahant namu.....	27
Stavan: Rishabha jinaraj muj aaj din	27
Thoye: Adi jinavar raya	30
<i>Parshwanathji's Chaityavandan</i>	31
Chaityavandan: Jai chintamani parshwanath	31
Stavan: Hu chhu anath prabhu zaljo	32
Thoye: Shankeshwar parshwanath pujiye.....	33
<i>Mahavirji's Chaityavandan</i>	34
Chaityavandan: Prabhu mahavir jagadhani	34
Stavan: Giruvarey guna tum tana	34
Thoye: Sansaar davanal dahaneeram	35
Guru Shastra Puja	36
<i>Sthaapanaa</i>	36
<i>Jala Pooja</i>	37
<i>Chandan Puja</i>	37
<i>Akshata Puja</i>	38
<i>Pushpa Puja</i>	38
<i>Naivedya Puja</i>	38
<i>Deep Puja</i>	39
<i>Dhoop Puja</i>	39
<i>Fal Puja</i>	40
<i>Ardha Puja</i>	40
<i>Stavan</i>	41
Samayik Anusthan	45
<i>Procedure for taking Samayik</i>	45
<i>Arihanto Mahadevo</i>	51
<i>Navkar mantra</i>	51
<i>Panchindiya</i>	52
<i>Khamaasaman</i>	52
<i>Iriyavahiya</i>	52
<i>Tassa uttari</i>	53
<i>Annattha</i>	54
<i>Logassa</i>	54
<i>Karemi bhante</i>	56
<i>Samaiya vayajutto</i>	56

<i>Muhapatti padilehana 50 bols</i>	57
<i>Procedure for completing samayik</i>	58
Vinay Anusthan	62
<i>Ichchhakaar suharai</i>	62
<i>Khamaasaman</i>	62
<i>Abhutthiomi</i>	62
<i>Tikkhutto</i>	63
<i>Suguru vandana</i>	63
<i>Sadguru vandana</i>	64
Pratikraman and Kshama Sutras	66
<i>Iriyavahiya</i>	66
<i>Saat lakh</i>	67
<i>Adhaar paapsthanak</i>	67
<i>Vandittu sutra</i>	68
<i>Khamemi</i>	76
<i>Jam jam manen</i>	76
<i>Khamiya khamavia</i>	76
Stotras	77
<i>Mahaveerashtakam Stotra</i>	77
<i>Bhaktaamar Stotra</i>	79
Shanti (kalash) Anushthan	80
<i>Uvasaggaharam</i>	80
<i>Bruhad shanti</i>	81
<i>Shivamastu sarva jagatah</i>	85
Pratyakhyan	85
<i>Chauviahar pratyakhyan</i>	85
<i>Navkarshi pratyakhyan</i>	86
Aarti	86
<i>Aarti – Rishabhdev</i>	86
<i>Aarti – Mahavir Swami</i>	87
<i>Aarti - Panch Parmeshthi (Iha vidhi magal aarati kije)</i>	88
<i>Mangal deevo</i>	90
Mangalik	91
<i>Chattari mangalam</i>	91
<i>Mangalam bhagwan veero (Sthulibhadradhya & Kundakundhya)</i>	92

Sajjayi.....	93
<i>Bahu punya kera.....</i>	<i>93</i>
<i>Samaro mantra.....</i>	<i>94</i>
<i>Maitri bhavnu.....</i>	<i>95</i>
<i>Meri bhavana.....</i>	<i>98</i>
<i>Ratnakar pachchishee.....</i>	<i>102</i>
Nityakram (Anusthan to Start and End the day)	110
<i>Prabhaat vidhi.....</i>	<i>110</i>
<i>Nidra vidhi.....</i>	<i>111</i>

Table of Contents - Feb 04, 2003

Mantras for Jaap and Dhyaan Anusthan

Navkar Mantra

नमो अरिहंताणं

namo arihantāṇaṁ

नमो सिद्धाणं

namo siddhāṇaṁ

नमो आयरियाणं

namo āyariyāṇaṁ

नमो उवज्झायाणं

namo uvajjhāyāṇaṁ

नमो लोए सव्व- साहुणं

namo loae savva- sāhuṇaṁ

एसो पंच-नमुक्कारो, सव्व-पाव-प्पणासणो

eso pañca-namukkāro, savva-pāva-ppaṇāsaṇo

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं

maṅgalāṇaṁ ca savvesiṁ, paḍhamam havai maṅgalam

Pancha Kalyanak Mantra

ॐ ह्रीं श्री आदीश्वर परमेष्ठिने नमः

om hrīm śrī ādīśvara parameṣṭhine namaḥ

ॐ ह्रीं श्री आदीश्वर अहते नमः

om hrīm śrī ādīśvara arhate namaḥ

ॐ ह्रीं श्री आदीश्वर नाथाय नमः

om hrīm śrī ādīśvara nāthāya namaḥ

ॐ ह्रीं श्री आदीश्वर सर्वज्ञाय नमः

om hrīm śrī ādīśvara sarvajñāya namaḥ

ॐ ह्रीं श्री आदीश्वर पारंगताय नमः

om hrīm śrī ādīśvara pāraṅgatāya namaḥ

Diwali Jaap Mantra

दिपावली रात ११ से मध्यरात्री तक

dipāvalī rāta 11 se madhyarātrī taka

ॐ ह्रीं श्री महावीरस्वामी पारंगताय नमः ।

om hrīm śrī mahāvīrasvāmī pāraṅgatāya namaḥ ।

मध्यरात्री पश्चात्

madhyarātrī paścāt

महावीरस्वामी पहुँचे निर्वाण

mahāvīrasvāmī pahuṅce nirvāṇa

गौतमस्वामी पाये केवलज्ञान ॥

gautamasvāmī pāye kevalajñāna । ।

Stutis for Darshan Anusthan

Stutis explaining the importance of Darshan

Darshanam deva devasya

दर्शनं देव-देवस्य, दर्शनं पाप-नाशनम्

darśanaṁ deva-devasya, darśanaṁ pāpa-nāśanam

दर्शनं स्वर्ग-सोपानं, दर्शनं मोक्ष-साधनम्

darśanaṁ svarga-sopānaṁ, darśanaṁ mokṣa-sādhanam.

Prabhu darishan sukh sampada

प्रभु दरिशन सुख संपदा, प्रभु दरिशन नव-निध ।

prabhu dariśana sukha sampadā, prabhu dariśana nava-nidha ।

प्रभु दरिशनथी पामीए, सकल पदारथ सिद्ध ॥

prabhu dariśanathī pāmīe, sakala padāratha siddha । ।

भावे जिनवर पूजीए, भावे दीजे दान ।

bhāve jinavara pūjīe, bhāve dije dāna ।

भावे भावना भावीए, भावे केवल-ज्ञान ॥

bhāve bhāvanā bhāvīe, bhāve kevala-jñāna । ।

Jey drishti prabhu darshan kare tey

जे दृष्टि प्रभुदर्शन करे, ते दृष्टिने पण धन्य छे;

je dr̥ṣṭi prabhudarśana kare, te dr̥ṣṭine paṇa dhanya che;

जे जीभ जिनवरने स्तवे ते जीभने पण धन्य छे.

je jībha jinavarane stave te jībhane paṇa dhanya che.

पिये मुदावाणी सुधा ते कर्णयुगने धन्य छे;

piye mudāvāṇī sudhā te karṇayugane dhanya che;

तुज नाम मंत्र विशद धरे ते हृदयने नित धन्य छे.

tuja nāma mantra viśada dhare te hṛdayane nita dhanya che.

Saras shanti sudha rasa sagaram

सरस-शांति-सुधारस-सागरं, शुचितरं गुण रत्न महागरम् ।

sarasa-śānti-sudhārasa-sāgaram, śucitaram guṇa ratna mahāgarām ।

भाविक-पंकज-बोध दिवाकरं, प्रति-दिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् ॥

bhāvika-pañkaja-bodha divākaram, prati-dinam praṇamāmi jineśvaram । ।

Arihant Guna Stutis

Arahanto bhagvanta indra mahita

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिताः सिद्धाश्च सिद्धि-स्थिताः ।

arhanto bhagavanta indra mahitāḥ siddhāśca siddhi-sthitāḥ ।

आचार्या जिन-शासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।

ācāryā jina-śāsanonnatikarāḥ pūjyā upādhyāyakāḥ ।

श्री सिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः ।

śrī siddhānta-supāṭhakā munivarā ratnatrayārādhakāḥ ।

पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥

pañcaite parameṣṭhinaḥ pratidinam kurvantu vo maṅgalam । ।

Moksha margasya netaaram

मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृताम्

mokṣamārgasya netāram, bhettāram karmabhūbhṛtām

ज्ञातारं विश्ववस्तूनां, वंदे तद्गुणलब्धये ॥

jñātāram viśvavastūnām, vande tadguṇalabdhaye । ।

Adeshwarji - Tubhyam namastri-bhuvan

तुभ्यं नमस्त्रि-भुवनार्ति-हराय नाथ,
tubhyaṁ namastri-bhuvanārti-harāya nātha,
तुभ्यं नमः क्षितितला-मल-भूषणाय ।
tubhyaṁ namaḥ kṣititalā-mala-bhūṣaṇāya ।
तुभ्यं नमस्त्रि-जगतः परमेश्वराय,
tubhyaṁ namastri-jagataḥ parameśvarāya,
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधि-शोषणाय ॥
tubhyaṁ namo jina ! bhavodadhi-śoṣaṇāya ।।

Parshwanathji - Dekhi mukhadu parshwa

देखी मुखडुं श्री पार्श्व जिननुं नेत्र मारां ठरे छे
dekhī mukhaḍuṁ śrī pārśva jinanuṁ netra mārām ṭhare che
ने हैयुं आ फरी फरी प्रभु ध्यान तारुं धरे छे
ne haiyum ā pharī pharī prabhu dhyāna tāruṁ dhare che
आत्मा मारो प्रभु तुज कने आववा उल्लसे छे
ātmā māro prabhu tuja kane āvavā ullase che
आपो एवुं बळ हृदयमां माहरी आश ए छे
āpo evuṁ baḷa hṛdayamām māharī āśa e che

Mahavir Swami - Chhey pratima mahoharini

छे प्रतिमा मनोहारिणी, दुःखहरी श्री वीर जिणंदनी;
che pratimā manohāriṇī, duḥkhaharī śrī vīra jiṇandanī;
भक्तोने छे सर्वदा सुखकरी, जाणे खिली चांदनी.
bhaktone che sarvadā sukhakarī, jāṇe khilī cāndanī.
आ प्रतिमाना गुण भाव धरीने जे माणसो गाय छे;
ā pratimānā guṇa bhāva dharīne je māṇaso gāya che;

पामी सघलां सुख ते जगतना मुक्ति भणी जाय छे;

pāmī saghalām sukha te jagatanā mukti bhaṇī jāya che;

Mahavir swami - Veer sarva sura surendra mahito

वीरः सर्व-सुरासुरेन्द्र-महितो

vīraḥ sarva-surāsurendra-mahito

वीरं: बुधा: संश्रिता:

vīraṁḥ budhāḥ saṁśritāḥ

वीरेणाभिहतः स्वकर्म-निचयो

vīreṇābhihataḥ svakarma-nicayo

वीराय नित्यं नमः ।

vīrāya nityaṁ namaḥ ।

वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं

vīrāttīrthamidaṁ pravṛttamatulaṁ

वीरस्य घोरं तपो;

vīrasya ghoram tapo;

वीरे श्री-धृति- कीर्ति-कान्ति-निचयः

vīre śrī-dhṛiti- kīrti-kānti-nicayaḥ

श्री वीर भद्रं दिश ।

śrī vīra bhadrām diśa ।

Dohas recited during Pradakshina

Kaal anaadi ananta thi

काल अनादि अनंतथी, भव भ्रमणनो नहि पार;

kāla anādi anantathī, bhava bhramaṇano nahi pāra;

ते भव भ्रमण निवारवा, प्रदक्षिणा दऊं त्रण वार. १

te bhava bhramaṇa nivāravā, pradakṣiṇā daūm traṇa vāra. 1

भमतीमां भमतां थकां, भव भावठ दूर पलाय;

bhamatīmām bhamatām thakām, bhava bhāvaṭha dūra palāya;

ज्ञान दर्शन चारित्र रूप, प्रदक्षिणा त्रण देवाय. २

jñāna darśana cāritra rūpa, pradakṣiṇā traṇa devāya. 2

जन्म-मरणादि सवि भय टळे, सीझे जो दर्शन काज;

janma-maraṇādi savi bhaya ṭaḷe, sījhe jo darśana kāja;

रत्न-त्रयी प्राप्ति भणी, दर्शन करो जिन-राज. ३

ratna-trayī prāpti bhaṇī, darśana karo jina-rāja. 3

ज्ञान वडुं संसारमां, ज्ञान परम सुख हेत;

jñāna vaḍuṁ saṁsāramām, jñāna parama sukha heta;

ज्ञान विना जग जीवडा, न लहे तत्त्व संकेत. ४

jñāna vinā jaga jīvaḍā, na lahe tattva saṅketa. 4

चय ते संचय कर्मनो, रिक्त करे वळी जेह;

caya te sañcaya karmano, rikta kare vaḷī jeha;

चारित्र नाम निर्युक्ते कहुं, वंदे ते गुणगेह. ५

cāritra nāma niryukte kahyūṁ, vande te guṇageha. 5

ज्ञान दर्शन चारित्र ए, रत्न-त्रयी निरधार;

jñāna darśana cāritra e, ratna-trayī niradhāra;

त्रण प्रदक्षिणा ते कारणे, भव-दुःख भंजनहार. ६

traṇa pradakṣiṇā te kāraṇe, bhava-duḥkha bhañjanahāra. 6

Ek eku dagalu bharey

एकेकुं डगलुं भरे , शेत्रुंजा समो जेह ;

ekekuṁ ḍagalūṁ bhare , śetruñjā samo jeha ;

रिखव कहे भव क्रोडना, कर्म खपावे तेह .१

rikhava kahe bhava kroḍanā, karma khapāve teha .1

शत्रुंजय समो तीरथ नहीं, ऋषभ समो नहीं देव;

śatruñjaya samo tīratha nahīm, ṛṣabha samo nahīm deva;

गौतम सरीखा गुरु नहीं , वळी वळी वंदु तेह .२

gautama sarīkhā guru nahīm , vaḷī vaḷī vandu teha .2

सिद्धाचल समरु सदा, सोरठ देश मोझार ;

siddhācala samaru sadā, soraṭha deśa mojhāra ;

मनुष्यजन्म पामी करी, वंदु वार हजार .३

manuṣyajanma pāmī karī, vandu vāra hajāra .3

सोरठ देशमां संचर्यो , न चढ्यो गढ गिरनार ;

soraṭha deśamām sañcaryo , na caḍhyo gaḍha giranāra ;

शेत्रुंजी नदी नाह्यो नहीं, एनो एळे गयो अवतार .४

śetruñjī nadī nāhyo nahīm, eno eḷe gayo avatāra .4

शेत्रुंजी नदी नाहीने , मुख बांधी मुखकोश;

śetruñjī nadī nāhīne , mukha bāndhī mukhakośa;

देव युगादि पूजीए , आणी मन संतोष .५

deva yugādi pūjīe , āṇī mana santoṣa .5

जगमां तीरथ दो वडा , शत्रुंजय गिरनार;

jagamām tīratha do vaḍā , śatruñjaya giranāra;

एक गढ रिखव समोसर्या, एक गढ नेमकुमार.६

eka gaḍha rikhava samosaryā, eka gaḍha nemakumāra.6

सिद्धाचल सिद्धि वर्या , मुनिवर कोडी अनंत ;

siddhācala siddhi varyā , munivara koḍī ananta ;

आगे अनंता सिद्धशे , पूजो भवि भगवंत .७

āge anantā siddhaśe , pūjo bhavi bhagavanta .7

Dravya pooja

Dohas for Anga pooja

Jal pooja

अ

a

ज्ञान कलश भरी आतमा, समता रस भरपूर.

jñāna kalaśa bharī ātamā, samatā rasa bharapūra.

श्री जिनने नवरावतां, कर्म होये चकचूर. १

śrī jinane navarāvataṁ, karma hoye cakacūra. 1

आ

ā

जल पूजा जुगते करो, मेल अनादि विनाश.

jala pūjā jugate karo, mela anādi vināśa.

जल पूजा फल मुज होजो, मागो एम प्रभु पास. १

jala pūjāa phala muja hojo, māgo ema prabhu pāsa. 1

इ

i

मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे;

meru śikhara navarāve ho surapati, meru śikhara navarāve;

जन्म काल जिनवरजी को जाणी, पंच-रूप करी आवे.. हो. १

janma kāla jinavarajī ko jāṇī, pañca-rūpa karī āve.. ho. 1

रत्न प्रमुख अड जातिना कलशा, औषधि चूरण मिलावे;

ratna pramukha aḍa jātinā kalaśā, auśadhi cūraṇa milāve;

खीर समुद्र तीर्थोदक आणी, स्नात्र करी गुण गावे.. हो. २

khīra samudra tīrthodaka āṇī, snātra karī guṇa gāve.. ho. 2

एणी पेरे जिन-प्रतिमा को न्हवण करी, बोधि-बीज मानुं वावे;

eṇī pere jina-pratimā ko nhavaṇa karī, bodhi-bīja mānuṁ vāve;

अनुक्रमे गुण रत्नाकर फरसी, जिन उत्तम पद पावे.. हो. ३

anukrame guṇa ratnākara pharasī, jina uttama pada pāve.. ho. 3

Chandan pooja

शीतल गुण जेहमां रह्यो, शीतल प्रभु मुख रंग.

śītala guṇa jehamām rahyo, śītala prabhu mukha raṅga.

आत्म शीतल करवा भणी, पूजो अरिहा अंग. १

ātma śītala karavā bhaṇī, pūjo arihā aṅga. 1

Nav anga pooja

जल भरी संपुट पत्रमां, युगलिक नर पूजंत.

jala bharī sampuṭa patramām, yugalika nara pūjanta.

ऋषभ चरण अंगूठडे, दायक भव-जल अंत. १

ṛṣabha caraṇa aṅgūṭhade, dāyaka bhava-jala anta. 1

जानु-बले काउस्सग्ग रह्या, विचर्या देश-विदेश.

jānu-bale kāussagga rahyā, vicaryā deśa-videśa.

खडां खडां केवल लह्युं, पूजो जानु नरेश. २

khaḍām khaḍām kevala lahyum, pūjo jānu nareśa. 2

लोकांतिक वचने करी, वरस्या वरसी-दान.

lokāntika vacane karī, varasyā varasī-dāna.

कर कांडे प्रभु-पूजना, पूजो भवि बहु-मान. ३

kara kāṇḍe prabhu-pūjanā, pūjo bhavi bahu-māna. 3

मान गयुं दोय अंसथी, देखी वीर्य अनन्त.

māna gayum doya aṁsathī, dekhī vīrya ananta.

भुजा-बले भव-जल तर्या, पूजो खंध महंत. ४

bhujā-bale bhava-jala taryā, pūjo khandha mahanta. 4

सिद्ध-शिला गुण ऊजली, लोकांते भगवंत.

siddha-śilā guṇa ūjalī, lokānte bhagavanta.

वसिया तिणे कारण भवि, शिर-शिखा पूजंत. ५

vasiyā tiṇe kārāṇa bhavi, śira-śikhā pūjanta. 5

तीर्थकर पद पुण्यथी, तिहुअण जन सेवंत.

tīrthaṅkara pada puṇyathī, tihuṇa jana sevanta.

त्रिभुवन-तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत. ६

tribhuvana-tilaka samā prabhu, bhāla tilaka jayavanta. 6

सोल पहोर प्रभु देशना, कंठे विवर वर्तुल.

sola pahora prabhu deśanā, kaṅṭhe vivara vartula.

मधुर ध्वनि सुर नर सुणे, तिणे गले तिलक अमूल. ७

madhura dhvani sura nara suṇe, tiṇe gale tilaka amūla. 7

हृदय कमल उपशम बले, बाल्यां राग ने रोष.

hṛdaya kamala upaśama bale, bālyām rāga ne roṣa.

हिम दहे वन-खंडने, हृदय तिलक संतोष. ८

hima dahe vana-khaṇḍane, hṛdaya tilaka santoṣa. 8

रत्न-त्रयी गुण ऊजली, सकल सुगुण विसराम.

ratna-trayī guṇa ūjalī, sakala suguṇa visarāma.

नाभि-कमलनी पूजना, करतां अविचल धाम. ९

nābhi-kamalanī pūjanā, karatām avicala dhāma. 9

उपदेशक नव तत्त्वना, तिणे नव अंग जिणंद.

upadeśaka nava tattvanā, tiṇe nava aṅga jiṇanda.

पूजो बहुविध रागथी, कहे शुभ-वीर मुणिंद. १०

pūjo bahavidha rāgathī, kahe śubha-vīra muṇinda. 10

Pushpa pooja

सुरभि अखंड कुसुम ग्रही, पूजो गत संताप.

surabhi akhaṇḍa kusuma grahī, pūjo gata santāpa.

सुमजंतु भव्य ज परे, करीये समकित छाप. १

sumajantu bhavya ja pare, kariye samakita chāpa. 1

Dohas for Agra Pooja

Dhoop pooja

अ

a

ध्यान घटा प्रगटावीये, वाम नयन जिन धूप.

dhyāna ghaṭā pragaṭāvīye, vāma nayana jina dhūpa.

मिच्छत्त दुर्गन्ध दूरे टले, प्रगटे आत्म स्वरूप. १

micchatta durgandha dūre ṭale, pragaṭe ātma svarupa. 1

आ

ā

अमे धूपनी पूजा करीए रे, ओ मन-मान्या मोहनजी;

ame dhūpanī pūjā karīe re, o mana-mānyā mohanajī;

अमे धूप-घटा अनुसरीए रे, ओ मन-मान्या मोहनजी;

ame dhūpa-ghaṭā anusarīe re, o mana-mānyā mohanajī;

नहीं कोइ तमारी तोले रे, ओ मन-मान्या मोहनजी;

nahīm koi tamārī tole re, o mana-mānyā mohanajī;

प्रभु अंते छे शरण तमारुं रे, ओ मन-मान्या मोहनजी. १

prabhu ante che śaraṇa tamāruṁ re, o mana-mānyā mohanajī. 1

Deepak pooja

द्रव्य-दीपक सु-विवेकथी, करतां दुःख होय फोक.

dravya-dīpaka su-vivekathī, karatām duḥkha hoya phoka.

भाव दीप प्रगट हुए, भासित लोका-लोक. १

bhāva dīpa pragaṭa hue, bhāsita lokā-loka. 1

Chamara

बे बाजु चामर ढाळे, एक आगळ वज्र उलाळे;

be bāju cāmara ḍhāle, eka āgaḷa vajra ulāaḷe;

जइ मेरु धरी उत्संगे, इंद्र चोसठ मळीआ रंगे.

jai meru dharī utsaṅge, indra coṣaṭha maḷīā raṅge.

प्रभुजीनुं मुखडुं जोवा, भवो भवनां पातिक खोवा. १

prabhujīnuṁ mukhaḍuṁ jovā, bhavo bhavanām pātika khovā. 1

Darpan pooja

प्रभु दर्शन करवा भणी, दर्पण पूजा विशाल.

prabhu darśana karavā bhaṇī, darpaṇa pūjā viśāla.

आत्म दर्पणथी जुए, दर्शन होय ततकाल. १

ātma darpaṇathī jue, darśana hoyā tatakāla. 1

Aksata pooja

शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही, नन्दावर्त विशाल.

śuddha akhaṇḍa akṣata grahī, nandāvarta viśāla.

पूरी प्रभु सन्मुख रहो, टाली सकल जंजाल. १

pūrī prabhu sanmukha raho, ṭālī sakala jañjāla. 1

Swastik pooja

अक्षत पूजा करतां थकां, सफल करूं अवतार.

akṣata pūjā karatām thakām, saphala karūm avatāra.

फल मांगु प्रभु आगळे, तार तार मुज तार. १

phala māṅgu prabhu āgaḷe, tāra tāra muja tāra. 1

सांसारिक फळ मागीने, रखड्यो बहु संसार.

sāmsāarika phaḷa māgīne, rakhaḍyo bahu sāmsāra.

अष्ट कर्म निवारवा, मागुं मोक्ष फल सार. २

aṣṭa karma nivāravā, māguṁ mokṣa phala sāra. 2

चिहुं गति भ्रमण संसारमां, जन्म मरण जंजाळ.

cihuṁ gati bhramaṇa saṁsāramāṁ, janma maraṇa jañjāḷa.

पंचम-गति विण जीवने, सुख नहीं त्रिहुं काल. ३

pañcama-gati viṇa jīvane, sukha nahīm trihuṁ kāla. 3

दर्शन ज्ञान चारित्रना, आराधनथी सार.

darśana jñāna cāritranā, ārādhanathī sāra.

सिद्धशिलानी उपरे, हो मुज वास श्री कार. ४

siddhaśilānī ūpare, ho muja vāsa śrī kāra. 4

Naivedya pooja

अणाहारी पद में कर्या, विग्गह गइय अनन्त.

aṇāhārī pada meṁ karyāṁ, viggaha gaiya ananta.

दूर करी ते दीजिये, अणाहारी शिव सन्त. १

dūra karī te dījiye, aṇāhārī śiva santa. 1

Fal pooja

इन्द्रादिक पूजा भणी, फळ लावे धरी राग.

indrādika pūjā bhaṇī, phaḷa lāve dharī rāga.

पुरुषोत्तम पूजी करी, मागे शिव-फळ त्याग. १

puruṣottama pūjī karī, māge śiva-phaḷa tyāga. 1

Bhaav pooja (Chaityavandan)

Sutras and method for Chaityavandan

Sakal kushal valli

सकल-कुशल-वल्ली-पुष्करावर्त्त-मेघो,
sakala-kuśala-vallī-puṣkarāvartta-megho,
दुरित-तिमिर-भानुः कल्प-वृक्षोपमानः.
durita-timira-bhānuḥ kalpa-vṛkṣopamānaḥ.
भव-जल-निधि पोतः सर्व संपत्ति हेतुः,
bhava-jala-nidhi potaḥ sarva sampatti hetuḥ,
स भवतु सततं वः श्रेयसे शान्तिनाथः. १
sa bhavatu satataṁ vaḥ śreyase śāntināthaḥ. 1

Jam kinchi

जं किंचि नाम-तित्थं, सग्गे पायालि माणुसे लोए.
jaṁ kiñci nāma-titthaṁ, sagge pāyāli māṇuse loe.
जाइं जिण-बिंबाईं, ताईं सव्वाईं वंदामि. १
jāim̐ jiṇa-bimbāim̐, tāim̐ savvāim̐ vandāmi. 1

Namutthunam

नमुत्थु णं, अरिहंताणं, भगवंताणं, १
namutthu ṇaṁ, arihantāṇaṁ, bhagavantāṇaṁ, 1
आइगराणं, तित्थ-यराणं, सयं-संबुद्धाणं, २
āigarāṇaṁ, tittha-yarāṇaṁ, sayāṁ-sambuddhāṇaṁ, 2
पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं, पुरिस-वर-पुंडरीआणं,
purisuttamaṇaṁ, purisa-sīhāṇaṁ, purisa-vara-puṇḍarīāṇaṁ,
पुरिस-वर-गंध-हत्थीणं, ३
purisa-vara-gandha-hatthīṇaṁ, 3

लोगुत्तमाणं, लोग-नाहाणं, लोग-हिआणं, लोग-पईवाणं,
 loguttamāṇaṃ, loga-nāhāṇaṃ, loga-hiāṇaṃ, loga-paivāṇaṃ,
 लोग-पज्जोअ-गराणं, ४
 loga-pajjoaa-garāṇaṃ, 4
 अभय-दयाणं, चक्खु-दयाणं, मग्ग-दयाणं,
 abhaya-dayāṇaṃ, cakkhu-dayāṇaṃ, magga-dayāṇaṃ,
 सरण-दयाणं, बोहि-दयाणं, ५
 saraṇa-dayāṇaṃ, bohi-dayāṇaṃ, 5
 धम्म-दयाणं, धम्म-देसयाणं, धम्म-नायगाणं,
 dhamma-dayāṇaṃ, dhamma-desayāṇaṃ, dhamma-nāyagāṇaṃ,
 धम्म-सारहीणं, धम्म-वर-चाउरंत-चक्कवट्टीणं, ६
 dhamma-sārahīṇaṃ, dhamma-vara-cāu)ranta-cakkavaṭṭīṇaṃ, 6
 अप्पडिहय-वर-नाण-दंसण-धराणं, वियट्ट-छउमाणं, ७
 appaḍihaya-vara-nāṇa-damsaṇa-dharāṇaṃ, viyaṭṭa-chaumāṇaṃ, 7
 जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं
 jīṇaṇaṃ jāvayāṇaṃ, tinnāṇaṃ tārayāṇaṃ, buddhāṇaṃ
 बोहयाणं, मुत्ताणं मोअगाणं, ८
 bohayāṇaṃ, muttāṇaṃ moagāṇaṃ, 8
 सव्वन्नूणं, सव्व-दरिसीणं, सिव-मयल-मरुअ-मणंत-
 savvannūṇaṃ, savva-darisīṇaṃ, siva-mayala-marua-maṇanta-
 मक्खय-मव्वाबाह-मपुणरावित्ति सिद्धिगइ-नामधेयं
 makkhaya-mavvābāha-mapuṇarāvitti siddhigai-nāmadheyāṃ
 ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअ-भयाणं. ९
 thāṇaṃ sampattāṇaṃ, namo jīṇaṇaṃ, jia-bhayāṇaṃ. 9
 जे अ अईया सिद्धा, जे अ भविस्संति-णागए काले.
 je a aīyā siddhā, je a bhavissanti-ṇāgae kāle.
 संपइ अ वट्टमाणा सव्वे ति-विहेण वंदामि. १०
 sampai a vaṭṭamaṇā savve ti-viheṇa vandāmi. 10

Javanti cheiam

जावंति चेइआई, उड्डे अ अहे अ तिरिअ-लोए अ.

jāvanti ceiāim, uḍḍhe a ahe a tiria-loe a.

सव्वाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं. १

savvāim tāim vande, iha santo tattha santāim. 1

Javanta ke vi sahu

जावंत के वि साहु, भरहेरवय-महा-विदेहे अ.

jāvanta ke vi sāhu, bharahevavaya-mahā-vidhehe a.

सव्वेसिं तेसिं पणओ, ति-विहेण ति-दंड-विरयाणं. १

savvesim tesim paṇao, ti-viheṇa ti-daṇḍa-virayaṇam. 1

Namo-arhata

नमोर्हत-सिद्धा-चार्योपाध्याय-सर्व-साधुभ्यः १

namorhat-siddhā-cāryopādhyāya-sarva-sādhubhyaḥ 1

Jaya viyaraya

जय वीयराय! जग-गुरु!, होउ ममं तुह प्पभावओ भयवं!.

jaya vīyarāya! jaga-guru!, hou mamaṁ tuha ppabhāvao bhayavam!.

भव-निव्वेओ मग्गाणुसारिआ इट्ठफल-सिद्धि. १

bhava-nivveo maggāṇusāriā iṭṭhaphala-siddhi. 1

लोग-विरुद्ध-च्चाओ गुरु-जण-पूआ परत्थ-करणं च.

loga-viruddha-ccāo guru-jaṇa-pūā parattha-karaṇam ca.

सुह-गुरु-जोगो तव्वयण-सेवणा आ-भवमखंडा. २

suha-guru-jogo tavvayaṇa-sevaṇā ā-bhavamakhaṇḍā. 2

वारिज्जइ जइ वि नियाण-बंधणं वीयराय! तुह समये.

vāarijjai jai vi niyāṇa-bandhaṇaṃ vīyarāya! tuha samaye.

तह वि मम हुज्ज सेवा, भवे भवे तुम्ह चलणाणं. ३

taha vi mama hujja sevā, bhava bhava tumha calañāṇaṃ. 3

दुक्ख-क्खओ कम्म-क्खओ, समाहि-मरणं च बोहि-लाभो अ.

dukkha-kkhaḍḍha kamma-kkhaḍḍha, samāhi-maraṇaṃ ca bohi-lābho a.

संपज्जउ मह एअं, तुह नाह! पणाम-करणेणं. ४

sampajjau maha eam, tuha nāha! paṇāma-karaṇeṇaṃ. 4

सर्व-मंगल-मांगल्यं, सर्व-कल्याण-कारणम्.

sarva-maṅgala-māṅgalyaṃ, sarva-kalyāṇa-kāraṇam.

प्रधानं सर्व-धर्माणां, जैनं जयति शासनम्. ५

pradhānaṃ sarva-dharmāṇāṃ, jainaṃ jayati śāsanam. 5

Arihanta cheiyanam

अरिहंत-चेइयाणं, करेमि काउस्सग्गं. १

arihanta-ceiyāṇaṃ, karemi kāussaggaṃ. 1

वंदण-वत्तिआए, पूअण वत्तिआए, सक्कार-वत्तिआए,

vandana-vattiāe, pūaṇa vattiāe, sakkāra-vattiāe,

सम्माण-वत्तिआए, बोहि-लाभ-वत्तिआए,

sammāṇa-vattiāe, bohi-lābha-vattiāe,

निरुवसग्ग-वत्तिआए. २

niruvasagga-vattiāe. 2

सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए

saddhāe, mehāe, dhiīe, dhāraṇāe, aṇupphāe

वड्ढमाणीए, ठामि काउस्सग्गं. ३

vaddhamāṇīe, ṭhāmi kāussaggaṃ. 3

अन्नत्थ-उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं,

annattha-ūsasiēṇaṃ, nīyasiēṇaṃ, khāsiēṇaṃ, chīēṇaṃ,

जंभाइएणं उड्डुएणं, वाय-निसग्गेणं, भमलिए,

jambhāieṇam uḍḍuaeṇam, vāya-nisaggeṇam, bhamalie,

पित्त-मुच्छाए, ४

pitta-mucchāe, 4

सुहुमेहिं अंग-संचालेहिं, सुहुमेहिं खेल-संचालेहिं,

suhumehiṃ aṅga-sañcālehiṃ, suhumehiṃ khela-sañcālehiṃ,

सुहुमेहिं दिट्ठि-संचालेहिं, ५

suhumehiṃ diṭṭhi-sañcālehiṃ, 5

एवमाइएहिं आगारेहिं, अ-भग्गो अ-विराहो,

evamāiehiṃ āgārehiṃ, a-bhaggo a-virāhio,

हुज्ज मे काउस्सग्गो. ६

hujja me kāussaggo. 6

जाव अरिहंताणं भगवंताणं, नमुक्कारेणं.

jāva arihantāṇam bhagavantāṇam, namukkāreṇam.

न पारेमि. ७

na pāremi. 7

ताव कायं ठाणेणं मोणेणं ज्ञाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि. ८

tāva kāyam ṭhāṇeṇam moṇeṇam jhāṇeṇam, appāṇam vosirāmi. 8

Avyo sharney tamara

आव्यो शरणे तमारा जिनवर ! करजो , आश पुरी अमारी ,

āvyo śaraṇe tamārā jinavara ! karajo , āśa purī amārī ,

नाव्यो भवपार म्हारो तुम विण जगमां , सार ले कोण मारी ;

nāvyo bhavapāra mhāro tuma viṇa jagamāṃ , sāra le koṇa mārī ;

गायो जिनराज ! आजे हरख अधिकथी , परम आनंदकारी ,

gāyo jinarāja ! āje harakha adhikathī , parama ānandakārī ,

पायो तुम दर्शनासे भवभय भ्रमणा , नाथ ! सर्वे अमारी .

pāyo tuma darśanāse bhavabhaya bhramaṇā , nātha ! sarve amārī .

भवोभव तुम चरणोनी सेवा , हुं तो मांगु छुं देवाधिदेवा .

bhavobhava tuma caraṇonī sevā , huṁ to māṅgu chuṁ devādhidevā .

सामुं जुओने सेवक जाणी , एवी उदयरत्ननी वाणी .

sāmuṁ juone sevaka jāṇī , evī udayaratnanī vāṇī .

जिने भक्ति जिने भक्ति , जिने भक्ति दिने दिने ;

jine bhakti rjine bhakti , rjine bhakti rdine diene ;

सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु , सदा मेऽस्तु भवे भवे .

sadā me'stu sadā me'stu , sadā me'stu bhave bhave .

उपसर्गाः क्षयं यान्ति , छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः

upasargāḥ kṣayaṁ yānti , chidyante vighnavallayaḥ

मनः प्रसन्नतामेति , पूज्यमाने जिनेश्वरे .

manaḥ prasannatāmeti , pūjyamāne jineśvare .

सर्व मंगल मांगल्यम् , सर्व कल्याण कारणम् ;

sarva maṅgala māṅgalyam , sarva kalyāṇa kāraṇam ;

प्रधानं सर्व धर्माणां , जैन जयंति शासनम् .

pradhānaṁ sarva dharmāṇāṁ , jaina jayanti śāsanam .

Chaityavandan Procedure

१ प्रथम इरियावहियं प्रतिक्रमण करे.

1 prathama iriyāvahiyam pratikramaṇa kareṁ.

२ फिर तीन खमा.. देकर इच्छा. चैत्य-वन्दन करुं? इच्छं

2 phira tīna khamā.. dekara icchā. caitya-vandana karuṁ? iccham

कहकर, सकल-कुशल-वल्ली, चैत्य-वन्दन, जं किंचि, नमुत्थु णं,

kahakara, sakala-kuśala-vallī, caitya-vandana, jaṁ kiñci, namutthu ṇam,

जावंति-चेइ, खमा.. जावंत के वि, नमोर्हत्, स्तवन एवं जय

jāvanti-cei, khamā.. jāvanta ke vi, namorhat, stavana evaṁ jaya

वीयराय सूत्र कहें.

vīyarāya sūtra kahem.

३ फिर खड़े होकर, अरिहंत-चेइआणं सूत्र कहकर, एक नवकार का

3 phira khade hokara, arihanta-ceiāṇaṁ sūtra kahakara, eka navakāra kā
काउस्सग्ग करके, काउस्सग्ग पारकर, नमोर्हत् कहकर, एक स्तुति कहें.

kāussagga karake, kāussagga pārakara, namorhat kahakara, eka stuti
kahem.

General Chaityavandan

Chaityavandan: Tuj murti ne nirakhava

तुज मूरतिने निरखवा, मुज नयणां तलसे;

tuja mūratine nirakhavā, muja nayaṇāṁ talase;

तुज गुण गणने बोलवा, रसना मुज हरखे. १

tuja guṇa gaṇane bolavā, rasanā muja harakhe. 1

काया अति आनंद मुज, तुम युग पद फरसे;

kāyā ati ānanda muja, tuma yuga pada pharase;

तो सेवक तार्या विना, कहो केम हवे सरसे? २

to sevaka tāryā vinā, kaho kema have saraśe? 2

एम जाणी ने साहिबा ए, नेक नजर मोहे जोय;

ema jāṇī ne sāahibā e, neka najara mohe joya;

ज्ञान विमल प्रभु नजरथी, तेह शुं जे नवि होय. ३

jñāna vimala prabhu najarathī, teha śuṁ je navi hoya. 3

Stavan: Bhaav bhini vandana

भाव-भीनी वन्दना भगवान चरणों में चढाएं

bhāva-bhīnī vandanā bhagavāna caraṇoṁ meṁ caḍhāeṁ

शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाएं

śuddha jyotirmaya nirāmaya rupa apane āpa pāeṁ

ज्ञान से निज को निहारे, दृष्टि से निज को निखारे

jñāna se nija ko nihāre, dr̥ṣṭi se nija ko nikhāre

आचरण की उर्वश में लक्ष्य तरुवर लहलहाए ॥१॥

ācaraṇa kī urvaśa meṁ lakṣya taruvara lahalahāe | | 1 | |

सत्य में आस्था अचल हो, चित्त संशय से न चल हो

satya meṁ āsthā acala ho, citta saṁśaya se na cala ho

सिद्ध कर आत्मानुशासन विजय का संगान गाये ॥२॥

siddha kara ātmānuśāsana vijaya kā saṅgāna gāye | | 2 | |

बिन्दु भी हम सिन्धु भी है, भक्त भी भगवान भी है

bindu bhī hama sindhu bhī hai, bhakta bhī bhagavāna bhī hai

छिन्न कर सब ग्रन्थियों को, सुप्त मानस को जगाये ॥३॥

chinna kara saba granthiyom ko, supta mānasa ko jagāye | | 3 | |

धर्म है समता हमारा, कर्म समतामय हमारा

dharma hai samatā hamārā, karma samatāmaya hamārā

साम्य योगी बन हृदयमें स्रोत समता का बहाये ॥४॥

sāmya yogī bana hr̥dayameṁ srota samatā kā bahāye | | 4 | |

Thoye: Kallan-kandam

कल्लाण-कंदं पढमं जिणिंदं,

kallāṇa-kandam paḍhamam̐ jīṇindam̐,

संतिं तओ नेमि-जिणं मुणिंदं.

santiṁ tao nemi-jīṇam̐ muṇindam̐.

पासं पयासं सुगुणिक-ठाणं,

pāsam̐ payāsam̐ suguṇikka-ṭhāṇam̐,

भत्तीइ वंदे सिरि-वद्धमाणं. १

bhatti vande siri-vaddhamāṇaṃ. 1

अपार-संसार-समुद्-पारं,
apāra-saṃsāra-samudda-pāraṃ,
पत्ता सिवं दितु सुइक्क-सारं.

pattā sivaṃ dintu suikka-sāraṃ.

सव्वे जिणिंदा सुर-विंद-वंदा,
savve jīṇindā sura-vinda-vandā,

कल्लाण-वल्लीण विसाल-कंदा. २

kallāṇa-vallīṇa visāla-kandā. 2

निव्वाण मग्गे वर-जाण-कप्पं
nivvāṇa magge vara-jāṇa-kappaṃ
पणासिया-सेस-कुवाइ-दप्पं.

paṇāsiyā-sesa-kuvāi-dappaṃ.

मयं जिणाणं सरणं बुहाणं,
mayam jīṇāṇam saraṇam buhāṇam,

नमामि निच्चं तिजग-प्पहाणं. ३

namāmi niccaṃ tijaga-ppahāṇam. 3

कुंदिंदु-गोक्खीर-तुसार-वन्ना,
kundindu-gokkhīra-tusāra-vannā,

सरोज-हत्था कमले निसन्ना.

saroja-hatthā kamale nisannā.

वाएसिरी पुत्थय-वग्ग-हत्था,
vāesirī putthaya-vagga-hatthā,

सुहाय सा अम्ह सया पसत्था. ४

suhāya sā amha sayā pasatthā. 4

Adeshwarji's Chaityavandan

Chaityavandan: Adeshwar arahant namu

आदि देव अरिहंत नमुं, धनुष पांचसें काया;

ādi deva arihanta namuṁ, dhanuṣa pāñcaseṁ kāyā;

नहीं काम क्रोध मान, मृषा नहीं माया. १

nahīm kāma krodha māna, mṛṣā nahīm māyā. 1

नहीं राग नहीं द्वेष, नाम निरंजन ताहरुं;

nahīm rāga nahīm dveṣa, nāma nirañjana tāharuṁ;

वदन दीठुं विशाल तिहां, सवि पाप गयुं माहरुं. २

vadana dīṭhuṁ viśāla tihāṁ, savi pāpa gayuṁ māharuṁ. 2

नामे हुं निर्मल थयो, जंपु जाप जिनवर तणो;

nāme huṁ nirmala thayo, jampu jāpa jinavara taṇo;

कवि ऋषभ एम उच्चरे, आदि देव महिमा घणो. ३

kavi ṛṣabha ema uccare, ādi deva mahimā ghaṇo. 3

Stavan: Rishabha jinaraj muj aaj din

ऋषभ जिनराज मुज आज दिन अति भलो ,

ṛṣabha jinarāja muja āja dina ati bhalo ,

गुणनीलो जेणे तुं नयण दीठो ;

guṇanīlo jeṇe tuṁ nayaṇa dīṭho ;

दुःख टळ्या सुख मिलीया , स्वामी ! तुज नीरखतां ,

duḥkha ṭaḷyā sukha miliyā , svāmī ! tuja nīrakhatāṁ ,

सुकृत संचय हुवो , पाप नीठो , १

sukṛta sañcaya huvo , pāpa niṭho , 1

कल्पशाखी फळयो , कामघट मुज मल्यो ,

kalpaśākhī phaḷyo , kāmaghaṭa muja malyo ,

आंगणे अमियनो मेह वूठो ;

āṅgaṇe amiyano meha vūṭho ;

मुज महीराण महीभाण तुज दर्शने ,

muja mahīrāṇa mahībhāṇa tuja darśane ,

क्षय गयो कुमति अंधार जूठो . २

kṣaya gayo kumati andhāra jūṭho . 2

कवण नर कनकमणि छोडी तृण संग्रहे ?

kavaṇa nara kanakamaṇi choḍī tṛṇa saṅgrahe ?

कवण कुंजर तजी करह लेवे ?

kavaṇa kuñjara taji karaha leve ?

कवण बेसे तजी , कल्पतरु बाउले ?

kavaṇa bese taji , kalpataru bāule ?

तुज तजी अवर सुर कोण सेवे ? ३

tuja taji avara sura koṇa seve ? 3

एक मुज टेक सुविवेक साहेब सदा ,

eka muja ṭeka suviveka sāheba sadā ,

तुज विना देव दुजो न इहुं:

tuja vinā deva dujo na ihuṁḥ

तुज वचन राग सुख सागरे झीलतो ,

tuja vacana rāga sukha sāgare jhīlato ,

कर्मभर भ्रम थकी हुं न बीहुं, ४

karmabhara bhrama thakī huṁ na bihuṁ, 4

कोडी छे दास विभु! ताहरे भलभला ,

koḍī che dāsa vibhu! tāhare bhalabhalā ,

माहरे देव तुं एक प्यारो ;

māhare deva tuṁ eka pyāro ;

पतितपावान समो जगत उद्धारकर ,

patitapāvāna samo jagata uddhārakara ,

महिर करी मोहि भवजलधि तारो , ५

mahira karī mohi bhavajaladhi tāro , 5
मुक्तिथी अधिक तुज भक्ति मुज मन वसी ,
muktithī adhika tuja bhakti muja mana vasi ,
जेहशुं सबळ प्रतिबंध लाग्यो :

jehaśum sabaḷa pratibandha lāgyo :
चमकपाषाण जिम लोहने खेचशे ,
camakapāṣāṇa jima lohaene kheñcaśe ,
मुक्तिने सहज तुज भक्तिरागो . ६

muktine sahaja tuja bhaktirāgo . 6
धन्य ते काय , जिणे पाय तुज प्रणमीया ,
dhanya te kāya , jiṇe pāya tuja praṇamīyā ,
तुज थुण्ये जेह धन्य ! धन्य ! जिहा :

tuaja thuṇye jeha dhanya ! dhanya ! jihā :
धन्य ! ते हृदय जिणे तुज सदा समरीये ,
dhanya ! te hṛdaya jiṇe tuja sadā samarīye ,
धन्य ते रात ने धन्य ! दिहा. ७

dhanya te rāta ne dhanya ! dihā. 7
गुण अनंता सदा तुज खजाने भर्या ,
guṇa anantā sadā tuja khajāne bharyā ,
एक गुण देत मुज शुं विमासो ?

eka guṇa deta muja śuṃ vimāso ?
रयण एक देत शी हाण रयणायरे ?
rayaṇa eka deta śī hāṇa rayaṇāyare ?

लोकनी आपदा जेणे नासो . ८
lokanī āpadā jeṇe nāso . 8

गंग सम रंग तुज कीर्ति कल्लोळीनो ,
gaṅga sama raṅga tuja kīrti kalloḷīno ,
रवि थकी अधिक तप तेज ताजो ;

ravi thakī adhika tapa teja tājo ;
नयविजय विबुध सेवक हुं आपरो ,
nayavijaya vibudha sevaka hum āparo ,
जश कहे अब मोहि निवाजो ९
jaśa kahe aba mohi nivājo 9

Thoye: Adi jinavar raya

आदि जिनवर राया, जास सोवन्न काया;
ādi jinavara rāyā, jāsa sovanna kāyā;
मरुदेवी माया, धोरी लंछन पाया.
marudevī māyā, dhorī lañchana pāyā.
जगत स्थिति निपाया, शुद्ध चारित्र पाया;
jagata sthiti nipāyā, śuddha cāritra pāyā;
केवल सिरी राया, मोक्ष नगरे सिधाया. १
kevala sirī rāyā, mokṣa nagare sidhāyā. 1
सवि जिन सुखकारी, मोह मिथ्या निवारी;
savi jina sukhakārī, moha mithyā nivārī;
दुरगति दुःख भारी, शोक संताप वारी.
duragati duḥkha bhārī, śoka santāpa vārī.
श्रेणी क्षपक सुधारी, केवलानंत धारी;
śreṇī kṣapaka sudhārī, kevalānanta dhārī;
नमीए नरनारी, जेह विश्वोपकारी. २
namīe naranārī, jeha viśvopakārī. 2
समवसरण बेठा, लागे जे जिनजी मिट्ठा;
samavasaraṇa beṭhā, lāge je jinajī miṭṭhā;
करे गणप पइट्ठा, इन्द्र चन्द्रादि दिट्ठा.
kare gaṇapa paiṭṭhā, indra candrādi diṭṭhā.
द्वादशांगी वरिट्ठा, गुंथतां टाले रिट्ठा;

dvādaśāṅgī varitṭhā, gunthatām ṭāle ritṭhā;
भविजन होय हिट्ठा, देखी पुण्ये गरिट्ठा. ३
bhavijana hoyā hitṭhā, dekhī puṇye garitṭhā. 3
सुर समकितवंता, जेह रिद्धे महंता;
sura samakitavantā, jeha riddhe mahantā;
जेह सज्जन संता, टालीए मुज चिंता.
jeha sajjana santā, ṭālīe muja cintā.
जिनवर सेवंता, विघ्न वारे दूरंता;
jinavara sevantā, vighna vāre dūrantā;
जिन उत्तम थुणंता, पद्मने सुख दिंता. ४
jina uttama thuṇantā, padmane sukha dintā. 4

Parshwanathji's Chaityavandan

Chaityavandan: Jai chintamani parshwanath

जय चिंतामणी पार्श्वनाथ, जय त्रिभुवन-स्वामी;
jaya cintāmaṇī pārśvanātha, jaya tribhuvana-svāmī;
अष्ट-कर्म रिपु जीतीने, पंचम गति पामी. १
aṣṭa-karma ripu jīṭine, pañcama gati pāmī. 1
प्रभु नामे आनंद-कंद, सुख संपत्ति लहीये;
prabhu nāme ānanda-kanda, sukha sampatti lahīye;
प्रभु नामे भव भव तणां, पातक सब दहीये. २
prabhu nāme bhava bhava taṇām, pātaka saba dahīye. 2
ॐ ह्रीं वर्ण जोडी करी ए, जपीए पारस नाम;
om hrīm varṇa joḍī karī e, japīe pārasa nāma;
विष अमृत थइ परिणमे, लहीए अविचल ठाम. ३
viṣa amṛta thai pariṇame, lahīe avicala ṭhāma. 3

Stavan: Hu chhu anath prabhu zaljo

हुं छुं अनाथ मारो झालजो रे हाथ - २

hum̐ chum̐ anātha māro jhālajo re hātha - 2

विनवु छुं प्रभु पारसनाथ

vinavu chum̐ prabhu pārasanātha

हुं छुं प्रवासी नथी कोई नो संग्नाथ - २

hum̐ chum̐ pravāsī nathī koī no saṅgātha - 2

विनवु छुं प्रभु पारसनाथ

vinavu chum̐ prabhu pārasanātha

सगां संबन्धी स्नेहीओ सौ, तो ये निराधार

sagām̐ sambandhī snehīo sau, to ye nirādhāra

एकलवायो छुं अवनिमां तारो छे आधार - २

ekalavāyo chum̐ avanimām̐ tāro che ādhāra - 2

जावुं छे दूर दूर देजो रे साथप्रभु - २

jāvuṁ che dūra dūra dejo re sāthaprabhu - 2

विनवु छुं प्रभु पारसनाथ

vinavu chum̐ prabhu pārasanātha

भडभडती आगमांथी नागने उगार्यो, नयनोथी वरसावी नेह

bhaḍabhaḍatī āgamānthī nāgane ugāryo, nayanothī varasāvī neha

संसार तापे हुं ये बळुं छुं, उगारो लावीने नेह - २

samsāra tāpe hum̐ ye baḷuṁ chum̐, ugāro lāvīne neha - 2

दीनबंधु छे दीनोना नाथ,प्रभु - २

dīnabandhu cho dīnonā nātha,prabhu - 2

विनवु छुं प्रभु पारसनाथ

vinavu chum̐ prabhu pārasanātha

मुक्तिनगरमां जावुं छे मारे, वचमां छे सागर मोटो

muktinagaramām jāvuṃ che māre, vacamām che sāgara moṭo

आगळ जाऊं त्यां पाछो पडुं छुं, मारग मळ्यो खोटो - २

āgaḷa jāūṃ tyām pācho paḍuṃ chuṃ, māraga maḷyo khoṭo - 2

तारजो ओ प्रभु त्रिभुवनना नाथ,प्रभु - २

tārajo o prabhu tribhuvanana nātha,prabhu - 2

विनवु छुं प्रभु पारसनाथ

vinavu chuṃ prabhu pārasanātha

Thoye: Shankeshwar parshwanath pujiye

शंखेश्वर पासजी पूजीए, नर भवनो लाहो लीजिए.

śaṅkheśvara pāsajī pūjīe, nara bhavano lāho lījīe.

मन वांछित पूरण सुर-तरु, जय वामासुत अलवेसरु. १

mana vāñchita pūraṇa sura-taru, jaya vāmāsuta alavesaru. 1

दोय राता जिनवर अति भला, दोय धोळा जिनवर गुण-नीला.

doya rātā jinavara ati bhalā, doya dhoḷā jinavara guṇa-nīlā.

दोय नीला दोय शामळ कह्या, सोळे जिन कंचन-वर्ण लह्या. २

doya nīlā doya śāmaḷa kahyā, soḷe jina kañcana-varṇa lahyā. 2

आगम ते जिनवर भाखीयो, गणधर ते हड्डे राखीयो.

āgama te jinavara bhākhīyo, gaṇadhara te haḍḍe rākhīyo.

तेहनो रस जेणे चाखीयो, ते हुवो शिव-सुख साखीयो. ३

tehano rasa jeṇe cākhīyo, te huvo śiva-sukha sākhīyo. 3

धरणेंद्र राय पद्मावती, प्रभु पार्श्व-तणा गुण गावती.

dharanendra rāya padmāvati, prabhu pārśva-taṇā guṇa gāvati.

सहु संघना संकट चूरती, नय-विमलनां वांछित पूरती. ४

sahu saṅghanā saṅkaṭa cūrati, naya-vimalanāṃ vāñchita pūrati. 4

Mahavirji's Chaityavandan

Chaityavandan: Prabhu mahavir jagadhani

प्रभु महावीर जगधणी, परमेश्वर जिनराज;

prabhu mahāvīra jagadhaṇī, parameśvara jinarāja;

श्रद्धा भक्ति ज्ञानथी, सार्या सेवक काज. १

śraddhā bhakti jñānathī, sāryā sevaka kāja. 1

काल स्वभाव ते नियति, कर्म ने उद्यम जाण;

kāla svabhāva te niyati, karma nea udyama jāṇa;

पंच कारणे कार्यनी, सिद्धि कथी प्रमाण. २

pañca kāraṇe kāryanī, siddhi kathī pramāṇa. 2

पुरुषार्थ तेमां कह्यो, कार्य सिद्धि करनार;

puruṣārtha temāṁ kahyo, kārya siddhi karanāra;

शुद्धात्मा महावीर जिन, वंदु वार हजार. ३

śuddhātmā mahāvīra jina, vandu vāra hajāra. 3

महावीरने ध्यावतां ए, महावीर आपोआप;

mahāvīrane dhyāvatām e, mahāvīra āpoāpa;

बुद्धि सागर वीरनी, साची अंतर छाप. ४

buddhi sāgara vīranī, sācī antara chāpa. 4

Stavan: Giruvarey guna tum tana

गिरुआ रे गुण तुम तणा, श्री वर्द्धमान जिनराया रे;

giruā re guṇa tuma taṇā, śrī varddhamāna jinarāyā re;

सुणतां श्रवणे अमी झरे, मारी निरमल थाये काया रे. गिरुआ. १

suṇatām śravaṇe amī jhare, māri niramala thāye kāyā re. giruā. 1

तुम गुणगण गंगाजले, हुं झीली निरमल थाउं रे;

tuma guṇagaṇa gaṅgājale, huṁ jhīlī niramala thāuṁ re;

अवर न धंयो आदरुं, निशदिन तोरा गुण गाउं रे. गिरुआ. २

avara na dhandho ādaruṁ, niśadina torā guṇa gāuṁ re. giruā. 2

झीलया जे गंगाजले, ते छिल्लर जल नवि पेसे रे;

jhīlyā je gaṅgājale, te chiallara jala navi pese re;

जे मालती फूले मोहिया, ते बाउल जइ नवि बेसे रे. गिरुआ. ३

je mālatī phūle mohiyā, te bāula jai navi bese re. giruā. 3

एम अमे तुम गुण गोठशुं, रंगे राच्या ने वळी माच्या रे;

ema ame tuma guṇa goṭhaśuṁ, raṅge rācyā ne vaḷī mācyā re;

ते केम पर सुर आदरे? जे परनारी वश राच्या रे. गिरुआ. ४

te kema para sura ādare? je paranārī vaśa rācyā re. giruā. 4

तुं गति तुं मति आशरो, तुं आलंबन मुज प्यारो रे;

tuṁ gati tuṁ mati āśaro, tum ālambana muja pyāro re;

वाचक यश कहे माहरे, तुं जीव जीवन आधारो रे. गिरुआ. ५

vācaka yaśa kahe māhare, tuṁ jīva jīvana ādhāro re. giruā. 5

Thoye: Sansaar davanal dahaneeram

संसार-दावा-नल-दाह-नीरं,

saṁsāra-dāvā-nala-dāha-nīraṁ,

संमोह-धूली-हरणे-समीरं.

sammoha-dhūlī-haraṇe-samīraṁ.

माया-रसा-दारण-सार-सीरं,

māyā-rasā-dāraṇa-sāra-sīraṁ,

नमामि-वीरं गिरि-सार-धीरं. १

namāmi-vīraṁ giri-sāra-dhīraṁ. 1

भावा-वनाम-सुर-दानव-मानवेन,

bhāvā-vanāma-sura-dānava-mānavena,

चूला-विलोल-कमला-वलि-मालितानि,

cūlā-vilola-kamalā-vali-mālitāni,

संपूरिता-भिनत-लोक-समीहितानि,

sampūritā-bhinata-loka-samīhitāni,

कामं-नमामि जिनराज-पदानि तानि. २

kāmaṁ-namāmi jinarāja-padāni tāni. 2

बोधागाधं सुपद-पदवी-नीर-पूराभिरामं,

bodhāgādham̐ supada-padavī-nīra-pūrābhirāmaṁ,

जीवा-हिंसा-विरल-लहरी-संगमा-गाह-देहं.

jīvā-hiṁsā-virala-laharī-saṅgamā-gāha-deham̐.

चूला-वेलं-गुरु-गम-मणि-संकुलं दूर-पारं,

cūlā-velaṁ-guru-gama-maṇi-saṅkulaṁ dūra-pāraṁ,

सारं वीरा-गम-जल-निधिं सादरं साघू सेवे. ३

sāraṁ vīrā-gama-jala-nidhiṁ sādaraṁ sāghū seve. 3

आमूला-लोल-धूली-बहुल-परिमलालीढ-लोलालि-माला-

āmūlā-lola-dhūlī-bahula-parimalālīḍha-lolāli-mālā-

झंकारा-राव-सारा-मल-दल-कमला-गार-भूमी-निवासे!,

jhaṅkāra-rāva-sārā-mala-dala-kamalā-gāra-bhūmī-nivāse!,

छाया-संभार-सारे! वर-कमल-करे! तार-हाराभिरामे!,

chāyā-sambhāra-sāre! vara-kamala-kare! tāra-hārābhirāme!,

वाणी-संदोह-देहे! भव विरह-वरं देहि मे देवि! सारं. ४

vāṇī-sandoha-dehe! bhava viraha-varaṁ dehi me devi! sāraṁ. 4

Guru Shastra Puja

Sthaapanaa

केवल-रविकिरणोंसे जिसका, सम्पूर्ण प्रकाशित है अन्तर ।

kevala-ravikiranomse jisakā, sampūrṇa prakāśita hai antara ।

उस श्री जिनवाणीं में होता, तत्त्वों का सुन्दरतम दर्शन ॥

usa śrī jinavāṇīm̐ meṁ hotā, tattvaṁ kā sundaratama darśana । ।

सद्दर्शन बोध चरण पथ पर, अविरत जो बढ़ते है मुनिगण ।

saddarśana bodha caraṇa patha para, avirata jo baḍhate hai munigaṇa |
उन देव परम आगम गुरुको, शत-शत वंदन शत-शत वंदन ॥

una deva parama āgama guruko, śata-śata vandana śata-śata vandana | |

ॐ ह्रीं देवशास्त्र गुरु समुह । अत्र अवतर अवतर संविष्ट ।

om hrīm devaśāstra guru samuha | atra avatara avatara samviṣṭa |

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट ॥

atra tiṣṭha tiṣṭha ṭhaḥ ṭhaḥ | atra mama sannihito bhava bhava vaṣaṭa | |

Jala Pooja

इन्द्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कञ्चन काया ।

indriya ke bhoga madhura viṣa sama, lāvaṇyamayī kañcana kāyā |

यह सब कुछ जड की क्रीडा है, मैं अब तक जान नहीं पाया ॥

yaha saba kucha jaḍa kī kriḍā hai, maim aba taka jāna nahīm pāyā | |

मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ ।

mai bhūla svayaṁ ke vaibhava ko, para mamatā mem aṭakāyā hūm |

अब निर्मल सम्यक् नीर लिये, मिथ्या मल धोने आया हूँ ॥

aba nirmala samyak nīra liye, mithyā mala dhone āyā hūm | |

Chandan Puja

जड चैतन्यकी सब परिणति प्रभु, अपने अपने में होती है ।

jaḍa caitanyakī saba pariṇati prabhu, apane apane mem hotī hai |

अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है ॥

anukūla kahe pratikūla kahe, yaha jhūṭhī mana kī vṛtti hai | |

प्रतिकूल संयोगो में क्रोधित, होकर संसार बढ़ाया है ।

pratikūla saṁyogo mem krodhita, hokara saṁsāra baḍhāyā hai |

संतप्त हृदय प्रभु, चंदन सम शीतलता पाने आया हूँ ।

santapta hr̥daya prabhu, candana sama śītalatā pāne āyā hūm̐ ।

Akshata Puja

उज्ज्वल हूँ कुन्दधवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किञ्चित् भी ।

ujjvala hūm̐ kundadhavala hūm̐ prabhu, para se na lagā hūm̐ kiñcit bhī ।

फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरन्तर ही ॥

phira bhī anukūla lage una para karatā abhimāna nirantara hī । ।

जड पर झुक झुक जाता चेतन की भार्द्रव की खंडित काया ।

jaḍa para jhuka jhuka jātā cetana kī bhārdrava kī khaṇḍita kāyā ।

निज शाश्वत अक्षत-निधि पाने अब दास चरण रजमें आया ॥

nija śāśvata akṣata-nidhi pāne aba dāsa caraṇa rajamem āyā । ।

Pushpa Puja

यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं ।

yaha puṣpa sukomala kitanā hai, tana mem̐ māyā kucha śeṣa nahīm̐ ।

निज अन्तर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं ॥

nija antara kā prabhu bheda kahūm̐, usamem̐ ṛjutā kā leśa nahīm̐ । ।

चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, किरिया कुछ की कुछ होती है ।

cintana kucha phira sambhāṣaṇa kucha, kiriyā kucha kī kucha hotī hai ।

स्थिरता निज में प्रभु पाउं जो, अन्तर का कालुष धोती है ॥

sthiratā nija mem̐ prabhu pāuṁ jo, antara kā kāluṣa dhotī hai । ।

Naivedya Puja

अब अगणित द्रव्यों से, प्रभु भूख मेरी शान्त हुई ।

aba agaṇita dravyom̐ se, prabhu bhūkha merī śānta huī ।

तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही ॥

tr̥ṣṇā kī khāi khūba bhari, para rikta rahī vaha rikta rahī । ।

युग युग से इच्छासागरमें, प्रभु गोते खाता आया हूँ ।

yuga yuga se icchāsāgaramem, prabhu gote khātā āyā hūm ।

पंचेन्द्रिय मन के षट् रस तज, अनुपम रस पीने आया हूँ ॥

pañcendriya mana ke ṣaṭ rasa taja, anupama rasa pīne āyā hūm । ।

Deep Puja

जग के जड दीपक की अब तक, समजा था मैंने उजियारा ।

jaga ke jaḍa dīpaka kī aba taka, samajā thā mainne ujiyārā ।

झंझा के एक झकोरेमें, जी बनता घोर तिमिर कारा ॥

jhañjhā ke eka jhakoremem, jī banatā ghora timira kārā । ।

अत एव प्रभो यह नश्वर दीप, समर्पण करने आया हूँ ।

ata eva prabho yaha naśvara dīpa, samarpaṇa karane āyā hūm ।

तेरी अन्तर लौ से निज अन्तर दीप जलाने आया हूँ ॥

terī antara lau se nija antara dīpa jalāne āyā hūm । ।

Dhoop Puja

जड कर्म घुमाता है मुजको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी ।

jaḍa karma ghumātā hai mujako, yaha mithyā bhrānti rahī merī ।

मैं राग द्वेष किया करता, जब परिणती होती जड केरी ॥

maiṁ rāga dveṣa kiyā karatā, jaba pariṇatī hotī jaḍa kerī । ।

यों भाव करम या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ ।

yoṁ bhāva karama yā bhāva maraṇa, sadiyoṁ se karatā āyā hūm ।

निज अनुपम-मन्त्र अनन्त से प्रभु, पर-गन्ध जलाने आया हूँ ॥

nija anupama-mantra ananta se prabhu, para-gandha jalāne āyā hūm । ।

Fal Puja

जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है ।

jaga meṁ jisako nija kahatā maim, vaha choḍa mujhe cala detā hai ।

मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है ॥

maim ākula vyākula ho letā, vyākula kā phala vyākulatā hai । ।

मैं शान्त निराकुल चेतन हूँ, है मुक्तिरमा सहचर मेरी ।

maim śānta nirākula cetana hūm, hai muktiramā sahacara merī ।

वह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा मेरी ॥

vaha moha taḍaka kara ṭūṭa paḍe prabhu, sārthaka phala pūjā merī । ।

Ardha Puja

क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है ।

kṣaṇa bhara nija rasa ko pī cetana, mithyā mala ko dho detā hai ।

काषायिक भाव विनष्ट किये, निज आनन्द अमृत पीता है ॥

kāṣāyika bhāva vinaṣṭa kiye, nija ānanda amṛta pītā hai । ।

अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है ।

anupama sukha taba vilasita hotā, kevala ravi jagamaga karatā hai ।

दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अर्हन्त अवस्था है ॥

darśana bala pūrṇa pragāṭa hotā, yaha hī arhanta avasthā hai । ।

यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु, निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा ।

yaha arghya samarpaṇa karake prabhu, nija guṇa kā ardha banāūngā ।

और निश्चित तेरे सदृश प्रभु, अर्हन्त अवस्था पाऊंगा ॥

aura niścita tere sadṛśa prabhu, arhanta avasthā pāūngā । ।

Stavan

भव वन में जीभर घुम चुका, कण कण को जी भर भर देखा ।

bhava vana meṁ jībhara ghuma cukā, kaṇa kaṇa ko jī bhara bhara dekhā ।

मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुजको न मिली सुख की रेखा ॥१ ॥

mṛga sama mṛga tṛṣṇā ke pīche, mujako na milī sukha kī rekhā । । 1 । ।

झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशायें ।

jhūṭhe jaga ke sapane sāre, jhūṭhī mana kī saba āśāyeri ।

तन-जीवन-यौवन-अस्थिर है, क्षणभंगुर पल में सुखजाये ॥२ ॥

tana-jīvana-yauvana-asthira hai, kṣaṇabhaṅgura pala meṁ sukhajāye । । 2 । ।

सम्राट महा बल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या?

samrāṭa mahā bala senānī, usa kṣaṇa ko ṭāla sakegā kyā?

अशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या? ॥३ ॥

aśaraṇa mṛta kāyā meṁ harṣita, nija jīvana ḍāla sakegā kyā? । । 3 । ।

संसार महा दुःख-सागर के, प्रभु दुख मय सुख आभासों में ।

samsāra mahā duḥkha-sāgara ke, prabhu dukha maya sukha ābhāsoṁ meṁ ।

मुजको न मिला सुख क्षणभर भी, कञ्चन-कामिनी-प्रासादों में ॥४ ॥

mujako na milā sukha kṣaṇabhara bhī, kañcana-kāminī-prāsādoṁ meṁ । । 4 । ।

मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सबही आते ।

maim ekākī ekatva lie, ekatva lie sabahī āte ।

तन धन की साथी समजा था, पर ये भी छोड़ चले जाते ॥५ ॥

tana dhana kī sāthī samajā thā, para ye bhī choḍa cale jāte । । 5 । ।

मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ ।

mere na hue ye maim inase, ati bhinna akhaṇḍa nirālā hūṁ ।

निज में पर से अन्यत्व लिये, निज समरस पीने वाला हूँ ॥६ ॥

nija meṁ para se anyatva liye, nija samarasa pīne vālā hūm | | 6 | |

जिनके शृङ्गारों में मेरा, यह महंगा जीवन धुल जाता ।

jinake śṛṅgārom meṁ merā, yaha mahaṅgā jīvana dhula jātā |

अत्यन्त अशुचि जड काया से, इस चेतन का कैसा जाता? ॥७॥

atyanta aśuci jaḍa kāyā se, isa cetana kā kaisā jātā? | | 7 | |

दिन रात शुभाशुभ भावों से, मेरा व्यापार चला करता ।

dina rāta śubhāśubha bhāvom se, merā vyāpāra calā karatā |

मानस वाणी और काया से, आश्रव का द्वार खुला रहता ॥८॥

mānasa vāṇī aura kāyā se, āśrava kā dvāra khulā rahatā | | 8 | |

शुभ और अशुभ की ज्वाला से, झुलसा है मेरा अन्तस्तल ।

śubha aura aśubha kī jvālā se, jhulasā hai merā antastala |

शीतल समकित किरणें फूटें, संवर से जागे अन्तर्बल ॥९॥

śītala samakita kiraṇem phūṭem, saṁvara se jāge antarbala | | 9 | |

फिर तपकी शोधक वहनि जगे, कर्मों की कडीयाँ टूट पडें ।

phira tapakī śodhaka vahani jage, karmom kī kaḍiyām ṭūṭa paḍem |

सर्वाङ्ग निजात्म प्रदेशों से, अमृत के निर्झर फूट पडे ॥१०॥

sarvāṅga nijātma pradeśom se, amṛta ke nirjhara phūṭa paḍe | | 10 | |

हम छोड चले यह लोक तभी, लोकांत विराजें क्षण में जा ।

hama choḍa cale yaha loka tabhī, lokānta virājem kṣaṇa meṁ jā |

निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बनें फिर हमको क्या? ॥११॥

nija loka hamārā vāsā ho, śokānta banem phira hamako kyā? | | 11 | |

जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नयतम सत्वर टल जावे ।

jāge mama durlabha bodhi prabho, durnayatama satvara ṭala jāve |

बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद-मत्सर-मोह-विनश जावे ॥१२॥

basa jñātā drṣṭā raha jāūm, mada-matsara-moha-vinaśa jāve | | 12 | |

चिर रक्षक धर्म हमारा हो, हो धर्म हमारा चिर साथी ।

cira rakṣaka dharma hamārā ho, ho dharma hamārā cira sāthī |

जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी ॥१३॥

jaga meṁ na hamārā koī thā, hama bhī na rahe jaga ke sāthī | | 13 | |

चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुजको मिल जावे ।

carāṇom̐ mem āyā hūm̐ prabhuvara, śītalatā mujako mila jāve |

मुझाई ज्ञान लता मेरी, निज अन्तर्बल से खिल जावे ॥१४ ॥

murjhāī jñāna latā merī, nija antarbala se khila jāve | | 14 | |

सोचा करता हूँ भोगों से, बुज जावेगी इच्छा ज्वाला ।

socā karatā hūm̐ bhogom̐ se, buja jāvegī icchā jvālā |

परिणाम निकलता है लेकिन, मानो पावक में घी डाला ॥१५ ॥

pariṇāma nikalatā hai lekina, māno pāvaka meṁ ghī ḍālā | | 15 | |

तेरे चरणोंकी पूजा से, इन्द्रिय सुख की ही अभिलाषा ।

tere carāṇonkī pūjā se, indriya sukha kī hī abhilāṣā |

अब तक न मैं समज पाया प्रभु, सच्चे सुखकी भी परिभाषा ॥१६ ॥

aba taka na mai samaja pāyā prabhu, sacce sukhakī bhī paribhāṣā | | 16 | |

तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जगमें रहते जग से न्यारे ।

tuma to avikārī ho prabhuvara, jagameṁ rahate jaga se nyāre |

अत एव झुके तव चरणों में, जगके मणिक मोती सारे ॥१७ ॥

ata eva jhuke tava carāṇom̐ meṁ, jagake maṇika motī sāre | | 17 | |

स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभनय के झरने झरते है ।

syādvādamayī terī vāṇī, śubhanaya ke jharane jharate hai |

उस पावन नौका पर लाखों, प्राणी भव-वारिधि तिरते हैं ॥१८ ॥

usa pāvana naukā para lākhom̐, prāṇī bhava-vāridhi tirate haim̐ | | 18 | |

हे गुरुवर शाश्वत सुखदर्शक, यह नग्न स्वरुप तुम्हारा है ।

he guruvara śāśvata sukhadarśaka, yaha nagna svarupa tumhārā hai |

जगकी नश्वरता का सच्चा, दिग्दर्शन करने वाला हैं ॥१९ ॥

jagakī naśvaratā kā saccā, digdarśana karane vālā haim̐ | | 19 | |

जब जग विषयों में रच पच कर, गाफिल निद्रा में सोता हो ।

jaba jaga viṣayom̐ meṁ raca paca kara, gāphila nidrā meṁ sotā ho |

अथवा यह शिव के निष्कंठक में विष कंटक बोता हो ॥२० ॥

athavā yaha śiva ke niṣkaṅṭhaka mem viṣa kaṅṭaka botā ho | |20| |

हो अर्ध निशा का सन्नाठा, वन में वनचारी चरते हो ।

ho ardha niśā kā sannāṭhā, vana mem vanacārī carate ho |

तब शान्त निराकुल मानस तुम, तत्त्वोंका चिंतन करते हो ॥२१॥

taba śānta nirākula mānasa tuma, tattvonkā cintana karate ho | |21| |

करते रूप शल नदी तट पर, तरु तल वर्षा की झड़ियों में ।

karate rupa śala nadī taṭa para, taru tala varṣā kī jhaḍiyom mem |

समता रस पान किया करते, सुख दुःख दोनोंकी घड़ियों में ॥२२॥

samatā rasa pāna kiyā karate, sukha duḥkha donoṅkī ghaḍiyom

mem | |22| |

अन्तर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुलझड़ीया ।

antara jvālā haratī vāṅī, māno jhaḍatī ho phulajhaḍīyā |

भव बन्धन तड तड टूट पड़े, खिल जावे अन्तरकी कलियां ॥२३॥

bhava bandhana taḍa taḍa ṭūṭa paḍe, khila jāve antarakī kaliyām | |23| |

तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जगकी निधियां ।

tuma sā dānī kyā koī ho, jaga ko de dī jagakī nidhiyām |

दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनश्वर मणियां ॥२४॥

dina rāta luṭāyā karate ho, sama śama kī avinaśvara maṅiyām | |24| |

हे निर्मल देव तुम्हे प्रणाम! हे ज्ञान दीप आगम! प्रणाम ।

he nirmala deva tumhe praṇāma! he jñāna dīpa āgama! praṇāma |

हे शान्ति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पथी गुरुवर! प्रणाम ॥

he śānti tyāga ke mūrtimāna, śiva patha pathī guruvara! praṇāma | |

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः जयमोलार्धं निर्वपामीतिःस्वाहाः ।

om hrīm devaśāstragurubhyaḥ jayamolārdha nirvapāmītiḥsvāhāḥ |

Samayik Anusthan

Procedure for taking Samayik

Avoid using the restroom during sāmāyika.

Observe silence during sāmāyika.

Absolutely no eating, drinking and chewing during the entire sāmāyika.

During the 48 minutes of equanimity, one should perform only religious activities such as reading Jain books navakāra mantra meditation.

Step by Step Initiation of sāmāyika

1 Consecration of sthāpanācāryajī

a. Consecrate sthāpanācāryajī by placing a Jain book containing navakāra and pañcindiya sūtra on a (stand for books). This is necessary to establish a presence of gurudeva in his/ her absence.

b. Recite the following khamāsamaṇa sūtra (sāmāyika sūtra no. 3) the aspirant pays homage to the preceptor (gurudeva). sāmāyika sūtra with English transliterations and meanings are presented in Section 5.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe

nisīhiāe?, matthaēṇa vandāmi

Keeping the muhapati in left hand before the mouth and extending the right palm towards the sthāpanācāryajī, the aspirant should recite sūtra No 1 and 2.

2 iriyāvahiyaṃ pratikramaṇa

Then the aspirant performs iriyāvahiyaṃ (इरियावहियं) pratikramaṇa as follows.

a) Recite the following khamāsamaṇa by kneeling down in seated position.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

b) Recite sūtra No. 5,6 and 7. At the end of reciting sūtra 7, mentally recite one logassa sūtra (sūtra No. 8) or four navakāra. This is a kind of short meditation

c) After you have completed the above step, then say namo arihantāṇaṃ. Then, recite the logassa sūtra aloud. logassa sūtra is a prayer of 24 tirthaṅkara.

This completes the iriyāvahiyaṃ pratikramaṇa.

3 muhapati paḍilehaṇā Procedure

(Before you start the sāmāyika for the first time, learn the physical process of muhapati paḍilehaṇā from an experienced person. We will not go in details of the significance.)

a) Recite the following khamāsamaṇa kneeling down.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

b) Now the aspirant seeks permission for by saying the following and then performs muhapati paḍilehaṇā.

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !

icchākāreṇa sandisaha bhagavan!

सामायिक मुहपति पडिलेहुं? इच्छं ।

sāmāyika muhapati paḍilehum? icchaṁ.

Oh! Forgiving gurudeva, May I have your kind permission to perform the muhapati paḍilehaṇā ? (If a gurudeva is there, he/ she will say, "yes you may") The aspirant will respond by saying icchaṁ (इच्छं) , that means, "thank you kindly for granting my wish". In the absence of gurudeva, we assume that/she will grant the permission and we say "icchaṁ" after every time we seek permission form the gurudeva.

4 Taking the vow of sāmāyika

a. Recite the khamāsamaṇa sūtra kneeling down.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe

nisīhiāe?, matthaena vandāmi

b. Ask the permission from a gurudeva to take a sāmāyika vow by saying the following .

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !

icchākāreṇa sandisaha bhagavan!

सामायिक संदिसाहुं? इच्छं.

sāmāyika sandisāhum? icchaṁ

Meaning: Oh! Forgiving gurudeva, May I have your kind permission to take the oath of sāmāyika? if he/she is there, then he/she say would say, "Yes you may". In the absence of gurudeva, still may proceed.

c. recite the khamāsamaṇa sūtra kneeling down.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

d. Now, recite the following.

इच्छकारेण संदिसह भगवन्!

icchakāreṇa sandisaha bhagavan!

सामायिक ठाउं?इच्छं.

sāmāyika thāum? iccham.

Oh! Forgiving gurudeva, May I have your kind permission to be steady in the sāmāyika?

e. Recite on the navakāra mantra.

f. Now request to gurudeva to give you a vow of by saying the following.

इच्छाकरी भगवन्! पसाय करी सामायिक

icchākārī bhagavan! pasāya karī sāmāyika

दंडक उच्चरावोजी ।

daṇḍaka uccarāvojī.

Oh! Forgiving gurudeva, Please kindly give me the oath of sāmāyika.

i. In the absence of a gurudeva, you can take the vow by reciting the sūtra No. 9. If a gurudeva is there, then he/she will say this sūtra for the vow.

5 Preparation for 48 Minutes of Equanimity

a) Recite the following khamāsamaṇa sūtra kneeling down.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

Recite the following requests to a gurudeva. If he/she is there they will respond to your request according to Jain traditions. (please note that level of respect that should exists between a gurudeva and a disciple.)

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्!

icchakāreṇa sandisaha bhagavan!

बेसणे संदिसाहुं? इच्छं .

besaṇe sandisahum? iccham.

Oh! Forgiving gurudeva, May I ask for your permission to sit down ?

(NOTE: Generally all the above procedure should be performed standing. But it is also acceptable if you perform the entire sāmāyika sitting down.

c) Now, by reciting the following you take the permission to sit down for the 48 minutes of sāmāyika and perform religious study or meditation.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्!

icchākāreṇa sandisaha bhagavan!

बेसणे ठाउं? इच्छं.

besaṇe ṭhāuṃ? iccham.

Oh! forgiving gurudeva, May I Ask your permission to be steady in sāmāyika while sitting?

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisihiāe?, matthaena vandāmi

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !

icchākāreṇa sandisaha bhagavan!

सज्झाय संदिसाहुं ? इच्छं.

Oh! forgiving gurudeva, May I ask kind permission to begin the svādhyāya?

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisihiāe?, matthaena vandāmi

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !

icchākāreṇa sandisaha bhagavan!

सज्झाय करुं?

sajjhāya karum? iccham.

Oh! Forgiving gurudeva, May I have your kind permission to be steady in the svādhyāya?

d) Recite three navakāra mantra.

This completes the initiation of sāmāyika. Now you can engage in religious activities such as svādhyāya, contemplation, jāpa, meditation of navakāra mahāmantra, or pratikramaṇa for at least for 48 minutes.

Arihanto Mahadevo

अरिहन्तो महदेवो, जावजीवं सुसाहुणो गुरुणो ।

arihanto mahadevo, jāvajjīvaṃ susāhuṇo guruṇo ।

जिणपणत्तं तत्तं, इय समत्तं मए गहियं ॥१ ॥

jīṇapaṇṇattaṃ tattaṃ, iya samattaṃ mae gahiyaṃ । । 1 । ।

परमत्थ संथवो वा सुवीट्ठपरमत्थसेवणा वावि ।

paramattha santhavo vā suvīṭṭhaparamatthasevaṇā vāvi ।

वावण्णकुदंसणवज्जणा य सम्मत्तसद्दहणा ॥२ ॥

vāvaṇṇakudaṃsaṇavajjaṇā ya sammattasaddahaṇā । । 2 । ।

Navkar mantra

नमो अरिहंताणं

namo arihantāṇaṃ

नमो सिद्धाणं ।

namo siddhāṇaṃ ।

नमो आयरियाणं

namo āyariyāṇaṃ

नमो उवज्झायाणं

namo uvajjhāyāṇaṃ

नमो लोए सव्व- साहुणं

namo loae savva- sāhuṇaṃ

एसो पंच-नमुक्कारो, सव्व-पाव-प्पणासणो

eso pañca-namukkāro, savva-pāva-ppaṇāsaṇo
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं
maṅgalāṇaṃ ca savvesiṃ, paḍhamañṃ havai maṅgalaṃ

Panchindiya

पंचिंदिय-संवरणो, तह नव-विह-बंभचेर-गुत्तिधरो.
pañcindiya-saṃvaraṇo, taha nava-viha-bambhacera-guttidharo.
चउविह-कसाय-मुक्को, इअ अट्ठारस-गुणेहिं संजुत्तो. १
cauviha-kasāya-mukko, ia aṭṭhārasa-guṇehiṃ sañjutto. 1
पंच-महव्वय-जुत्तो, पंच-विहायार-पालण-समत्थो.
pañca-mahavvaya-jutto, pañca-vihāyāra-pālaṇa-samattho.
पंच-समिओ तिगुत्तो, छत्तीस-गुणो गुरु मज्झ. २
pañca-samio tigutto, chattisa-guṇo guru majjha. 2

Khamaasaman

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए
icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि
nisīhiāe ?, matthaēṇa vandāmi

Iriyavahiya

इच्छा-कारेण संदिसह भगवन्! इरियावहियं
icchā-kāreṇa sandisaha bhagavan! iriyāvahiyaṃ
पडिक्कमामि? इच्छं, इच्छामि पडिक्कमिउं. १
paḍikkamāmi? icchaṃ, icchāmi paḍikkamium. 1

इरियावहियाए, विराहणाए. २

iriyāvahiyāe, virāhaṇāe. 2

गमणागमणे. ३

gamaṇāgamaṇe. 3

पाण-क्कमणे, बीय-क्कमणे, हरिय-क्कमणे, ओसा-उत्तिंग-

pāṇa-kkamane, bīya-kkamane, hariya-kkamane, osā-uttiṅga-

पणग-दग-मट्टी-मक्कडा-संताणा-संकमणे. ४

paṇaga-daga-maṭṭī-makkaḍā-santaṇā-saṅkamaṇe. 4

जे मे जीवा विराहिया. ५

je me jīvā virāhiyā. 5

एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया. ६

egindiyā, beindiyā, teindiyā, caurindiyā, pañcindiyā. 6

अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया,

abhihayā, vattiyā, lesiyā, saṅghāiyā, saṅghaṭṭiyā,

परियाविया, किलामिया, उदविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया,

pariyāviyā, kilāmiyā, uddaviyā, ṭhāṇāo ṭhāṇaṃ saṅkāmiyā,

जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं. ७

jīviyāo vavaroviyā, tassa micchā mi dukkaḍaṃ. 7

Tassa uttari

तस्स उत्तरी-करणेणं, पायच्छित्त-करणेणं,

tassa uttarī-karaṇeṇaṃ, pāyacchitta-karaṇeṇaṃ,

विसोही-करणेणं, विसल्ली-करणेणं, पावाणं कम्माणं

visohī-karaṇeṇaṃ, visallī-karaṇeṇaṃ, pāvāṇaṃ kammaṇaṃ

निग्घायणट्ठाए, ठामि काउस्सगं. १

nigghāyaṇaṭṭhāe, ṭhāmi kāussaḡaṅ. 1

Annattha

अन्नत्थ-ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं,

annattha-ūsasieṇaṃ, nīsasieṇaṃ, khāsieṇaṃ, chīeṇaṃ,

जंभाइएणं उड्डुएणं, वाय-निसग्गेणं, भमलिए,

jambhāieṇaṃ uḍḍuaeṇaṃ, vāya-nisaggeṇaṃ, bhamalie,

पित्त-मुच्छाए, १

pitta-mucchāe, 1

सुहुमेहिं अंग-संचालेहिं, सुहुमेहिं खेल-संचालेहिं,

suhumehiṃ aṅga-sañcālehiṃ, suhumehiṃ khela-sañcālehiṃ,

सुहुमेहिं दिट्ठि-संचालेहिं, २

suhumehiṃ diṭṭhi-sañcālehiṃ, 2

एवमाइएहिं आगारेहिं, अ-भग्गो अ-विराहो,

evamāiehiṃ āgārehiṃ, a-bhaggo a-virāhio,

हुज्ज मे काउस्सग्गो. ३

hujja me kāussaggo. 3

जाव अरिहंताणं भगवंताणं, नमुक्कारेणं.

jāva arihantāṇaṃ bhagavantāṇaṃ, namukkāreṇaṃ.

न पारेमि. ४

na pāremi. 4

ताव कायं ठाणेणं मोणेणं ज्ञाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि. ५

tāva kāyaṃ ṭhāṇeṇaṃ moṇeṇaṃ jhāṇeṇaṃ, appāṇaṃ vosirāmi. 5

Logassa

लोगस्स उज्जोअ-गरे, धम्म-तित्थ-यरे जिणे.

logassa ujjooaa-gare, dhamma-tittha-yare jiṇe.

अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली. १

arihante kittaiṣṣaṃ, cau-vīsaṃ pi kevalī. 1

उसभ-मजिअं च वंदे, संभव-मभिणंदणं च सुमइं च.

usabha-majjāṃ ca vande, sambhava-mabhiṇandaṇaṃ ca sumaim ca.

पउम-प्पहं सुपासं, जिणं च चंद-प्पहं वंदे. २

pauma-ppahaṃ supāsaṃ, jīṇaṃ ca canda-ppahaṃ vande. 2

सुविहिं च पुप्फ-दंतं, सीअल-सिज्जंस-वासु-पुज्जं च.

suvihim ca puppha-dantaṃ, sīala-sijjaṃsa-vāsu-pujjaṃ ca.

विमल-मणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि. ३

vimala-maṇantaṃ ca jīṇaṃ, dhammaṃ santim ca vandāmi. 3

कुंथुं अरं च मल्लिं, वंदे मुणि-सुव्वयं नमि-जिणं च.

kunthum araṃ ca mallim, vande muṇi-suvvayaṃ nami-jīṇaṃ ca.

वंदामि रिट्ठ-नेमिं, पासं तह वद्धमाणं च. ४

vandāmi riṭṭha-nemim, pāsaṃ taha vaddhamāṇaṃ ca. 4

एवं मए अभिथुआ, विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा.

evaṃ mae abhithuā, vihuya-raya-malā pahīṇa-jara-maraṇā.

चउ-वीसं पि जिणवरा, तित्थ-यरा मे पसीयंतु. ५

cau-vīsaṃ pi jīṇavarā, tittha-yarā me pasīyantū. 5

कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा.

kittiya-vandiya-mahiyā, je ea logassa uttamā siddhā.

आरुग्ग-बोहि-लाभं, समाहि-वर-मुत्तमं-दित्तु. ६

ārugga-boihi-lābhaṃ, samāhi-vara-muttamaṃ-dintu. 6

चंदेसु निम्मल-यरा, आइच्चेसु अहियं पयास-यरा.

candesu nimmala-yarā, āiccesu ahiyaṃ payāsa-yarā.

सागर-वर-गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु. ७

sāgara-vara-gambhīrā, siddhā siddhim mama disantu. 7

Karemi bhante

करेमि भंते! सामाइयं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि,
kareami bhante! sāmāiyam sāvajjam jogam paccakkhāmi,
जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं, ति-विहेणं,
jāva niyamaṃ pajjuvāsāmi, duvihaṃ, ti-viheṇaṃ,
मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न कारवेमि,
maṇeṇaṃ, vāyāe, kāeṇaṃ, na karemi, na kāravemi,
तस्स भंते! पाडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि,
tassa bhante! pāḍiakkamāmi, nindāmi, garihāmi,
अप्पाणं वोसिरामि. १
appāṇaṃ vosirāmi. 1

Samaiya vayajutto

सामाइय-वय-जुत्तो, जाव मणे होइ नियम-संजुत्तो.
sāmāiya-vaya-jutto, jāva maṇe hoi niyama-sañjutto.
छिन्नइ असुहं कम्मं, समाइय जत्तिआ वारा. १
chinnai asuhaṃ kammaṃ, samāiya jattiā vārā. 1
सामाइयम्मि उ कए, समणो इव सावओ हवइ जम्हा.
sāmāiyamma u kae, samaṇo iva sāvaō havai jamhā.
एएण कारणेणं, बहुसो सामाइयं कुज्जा. २
eeṇa kāraṇeṇaṃ, bahuso sāmāiyam kujjā. 2
सामायिक विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया,
sāmāyika vidhi se liyā, vidhi se pūrṇa kiyā,
विधि में जो कोई अविधि हुई हो,
vidhi meṃ jo koī avidhi huī ho,
उन सबका मन-वचन-काया से मिच्छा मि दुक्कडं. ३
una sabakā mana-vacana-kāyā se micchā mi dukkaḍaṃ. 3

दस मन के, दस वचन के, बारह काया के-

dasa mana ke, dasa vacana ke, bāraha kāyā ke-

इन बत्तीस दोषों में से जो कोई दोष लगा हो,

ina battīsa doṣom̐ meṁ se jo koī doṣa lagā ho,

उन सबका मन-वचन-काया से मिच्छा मि दुक्कडं. ४

una sabakā mana-vacana-kāyā se micchā mi dukkaḍam̐. 4

Muhapatti padilehana 50 bols

सूत्र अर्थ तत्त्व करी सदहुं;

sūtra artha tattva karī saddahum̐;

सम्यकत्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय परिहरूं;

samyakatva mohaniya, miśra mohaniya, mithyātva mohaniya pariharum̐;

काम राग, स्नेह, राग, दृष्टि राग परिहरूं;

kāma rāaga, sneha, rāga, drṣṭi rāga pariharum̐;

सुदेव, सुगुरु, सुधर्म आदरूं;

sudeva, suguru, sudharma ādarum̐;

कुदेव, कुगुरु, कुधर्म परिहरूं;

kudeva, kuguru, kudharma pariharum̐;

ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदरूं;

jñāna, darśana, cāritra ādarum̐;

ज्ञान-विराधना, दर्शन-विराधना, चारित्र-विराधना परिहरूं;

jñāna-virāadhanā, darśana-virāadhanā, cāritra-virāadhanā pariharum̐;

मन-गुप्ति, वचन-गुप्ति, काय-गुप्ति आदरूं,

mana-gupti, vacana-gupti, kāya-gupti ādarum̐,

मन दण्ड, वचन-दण्ड, काय-दण्ड परिहरूं;

mana daṇḍa, vacana-daṇḍa, kāya-daṇḍa pariharum̐;

हास्य, रति, अरति, परिहरूं,

hāsyā, rati, arati, pariharūṁ,
भय, शोक, जुगुप्सा परिहरूं;
bhaya, śoka, jugupsā pariharūṁ;
कृष्ण-लेश्या, नील-लेश्या, कापोत-लेश्या परिहरूं;
kr̥ṣṇa-leśyā, nīla-leśyā, kāpota-leśyā pariharūṁ;
रस-गारव, ऋद्धि-गारव, शाता-गारव परिहरूं;
rasa-gārava, ṛddhi-gārava, śātā-gārava pariharūṁ;
माया-शल्य, नियाण-शल्य, मिथ्यात्व-शल्य परिहरूं;
māyā-śalya, niyāṇa-śalya, mithyātva-śalya pariharūṁ;
क्रोध, मान परिहरूं;
krodha, māna pariharūṁ;
माया, लोभ परिहरूं;
māyā, lobha pariharūṁ;

Procedure for completing samayik

Step by step Procedure for Ending of sāmāyika

After completion of 48 minutes of equanimity, the aspirant should end the sāmāyika in the following way. (It is ok if it is a little longer than 48 minutes but it should not be less than 48 minutes.)

1 iriyāvahiyaṁ pratikramaṇa

The aspirant performs iriyāvahiyaṁ (इरियावहियं) pratikramaṇa as follows.

a) Recite the following khamāsamaṇa by kneeling down in seated position.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

b) Recite sūtra No. 5,6 and 7. At the end of reciting sūtra 7, mentally recite one logassa sūtra (sūtra No. 8) or four navakāra. This is a kind of short meditation

c) After you have completed the above step, then say namo arihantāṇaṃ. Then, recite the logassa sūtra aloud. logassa sūtra is a prayer of 24 tirthaṅkara.

This completes the iriyāvahiyaṃ pratikramaṇa.

2 muhapati paḍilehaṇā Procedure

(Before you start the sāmāyika for the first time, learn the physical process of muhapati paḍilehaṇā from an experienced person. We will not go in details of the significance.)

a) Recite the following khamāsamaṇa kneeling down.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe
nisīhiāe?, matthaena vandāmi

b) Now the aspirant seeks permission for by saying the following and then performs muhapati paḍilehaṇā.

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !

icchākāreṇa sandisaha bhagavan!

सामायिक मुहपति पडिलेहुं? इच्छं ।

sāmāyika muhapati paḍilehum? iccham.

Oh! Forgiving gurudeva, May I have your kind permission to perform the

muhapati paḍilehaṇā ? (If a gurudeva is there, ha/ she will say, "yes you may") The aspirant will respond by saying iccham (इच्छं) , that means, "thank you kindly for granting my wish". In the absence of gurudeva, we assume that/she will grant the permission and we say "iccham" after every time we seek permission form the gurudeva.

3 Asking Permission to End the Vow of sāmāyika

a) Recite the khamāsamaṇa Kneeling down.

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe

nisīhiāe?, matthaena vandāmi

b) Ask the permission of gurudeva for ending the sāmāyika vow by saying the following.

इच्छकरेण संदिसह भगवन्!

icchakareṇa sandisaha bhagavan!

सामायिक पारुं? यथाशक्ति

sāmāyika pāruṃ? yathāśakti?

Oh! forgiving gurudeva, May I have your kind permission to conclude the sāmāyika? (If a gurudeva is there, then he/she would respond your request by saying puṇo vi kāyavvaṃ (पुणो वि कायव्वं) , means one should perform sāmāyika as often as he/she can") the aspirant responds by saying "I will definitely do as per my capacity"

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe

nisīhiāe?, matthaena vandāmi

इच्छक्रेण संदिसह भगवन्!

icchakareṇa sandisaha bhagavan!

सामायिक पार्यु? तहति ।

sāmāyika pāryuṃ? tahati.

Oh! Forgiving gurudeva, May I complete the sāmāyika? If a gurudeva is there, then the he would respond to you by saying , āyāro na mottavvo (आयारो न मोत्तव्वो) , means you should not forget the spiritual experience of sāmāyika. The aspirant respond back the saving, "I will do that". Note the mutual respect and honor that should exist between a gurudeva and a disciple.

4 Ending of sāmāyika

Now, put the first of the right hand on the caravalā or on kaṭāsaṇā.

a) Recite one navakāra mantra.

b) Continue keeping the right hand no the caravalā or on kaṭāsaṇā. Recite sūtra No. 10.

c) Continue keeping the right hand on the caravalā or on kaṭāsaṇā. recite the following confession and ask for atonement if you knowingly or unknowingly committed any type of faults during the entire sāmāyika.

There are 10 faults of mind, 10 faults of speech and 12 faults of body. If I have indulged in any these 32 faults or lapses by physical, verbal or mental activities, directly or indirectly, then I pray tassa micchā mi dukkaḍaṃ (तस्स मिच्छा मि दुक्कडं), means my faults be dissolved .

d) Now, the aspirant navakāra mantra keeping the poen right hand plam in front of the face. This is symbolic of withdrawing the attributes that were supposed to have been assumed in the preceptor's seat, sthāpanācāryajī.

this concludes the sāmāyika, Jai Jinendra.

Vinay Anusthan

Ichchhakaar suharai

First two khamāsamaṇa and then icchakāra

इच्छकार सुह-राइ ? सुह-देवसि ? सुख-तप ?

icchakāra suha-rāi ? suha-devasi ? sukha-tapa ?

शरीर-निराबाध? सुख-संजम-यात्रा-निर्वहते हो जी ?

śarīra-nirābādha? sukha-sañjama-yātrā-nirvahate ho jī ?

स्वामि ! शाता है जी ? आहार-पानी का लाभ देना जी . १

svāmi ! śātā hai jī ? āhāra-pānī kā lābha denā jī . 1

Khamaasaman

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं, जावणिज्जाए

icchāmi khamā-samaṇo! vandium, jāvaṇijjāe

निसीहिआए ?, मत्थएण वंदामि

nisīhiāe ?, matthaēṇa vandāmi

Abhutthiomi

इच्छा-कारेण संदिसह भगवन्! अब्भुट्ठिओमि,

icchā-kāreṇa sandisaha bhagavan! abbhutṭhiomi,

अब्भिंतर-देवसिअं खामेउं? इच्छं, खामेमि देवसिअं

abbhintara-devasiam khāmeum? iccham, khāmemi devasiam

जं किंचि अपत्तिअं, पर-पत्तिअं, भत्ते, पाणे;

jaṃ kiñci apattiaṃ, para-pattiaṃ, bhatte, pāṇe;
विणए, वेयावच्चे; आलावे, संलावे; उच्चासणे, समासणे;
viṇae, veyāvacce; ālāve, saṃlāave; uccāsaṇe, samāsaṇe;
अंतर-भासाए, उवरि-भासाए; जं किंचि मज्झ
antara-bhāsāe, uvāri-bhāsāe; jaṃ kiñci majjha
विणय-परिहीणं, सुहुमं वा, बायरं वा; तुब्भे जाणह,
viṇaya-parihīṇaṃ, suhumāṃ vā, bāyaraṃ vā; tubbhe jāṇaha,
अहं न जाणामि; तस्स मिच्छा मि दुक्कडं. १
ahaṃ na jāṇāmi; tassa micchā mi dukkaḍaṃ. 1

Tikkhutto

तिक्खुत्तो, आयाहिणं, पयाहिणं,
tikkhutto, āyāhiṇaṃ, payāhiṇaṃ,
करेमि, वंदामि, नमंसामि,
karemi, vandāmi, namaṃsāmi,
सक्कारेमि, सम्माणेमि, कल्लाणं,
sakkāreṃmi, sammāṇeṃmi, kallāṇaṃ,
मंगलं, देवयं, चेइयं,
maṅgalaṃ, devayaṃ, ceiyaṃ,
पज्जुवासामि, मत्थएण वंदामि
pajjuvāsāmi, mattha(e)ṇa vandāmi

Suguru vandana

इच्छामि खमा-समणो! वंदिउं जावणिज्जाए, निसीहिआए,
icchāmi khamā-samaṇo! vandium jāvaṇijjāe, nisīhiāe,
अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसीहि, अहो-कायं काय-संफासं-

aṇujāṇaha me miuggahaṃ, nisīhi, aho-kāyaṃ kāya-samphāsaṃ-
खमणिज्जो भे किलामो? अप्प-किलंताणं बहु-सुभेण भे!

khamañijjo bhe kilāmo? appa-kilantāṇaṃ bahu-subheṇa bhe!

दिवसो वइक्वंतो? जत्ता भे? जवणिज्जं च भे!

divaso vaikknto? jattā bhe? jvaṇijjaṃ ca bhe!

खामेमि खमा-समणो! देवसिअं वइक्कमं, आवस्सिआए

khāmemi khamā-samaṇo! devasiam̐ vaikkamaṃ, āvassīāe

पडिक्कमामि, खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए

paḍikkamāmi, khamāsamaṇāṇaṃ, devasiāe āsāyaṇāe

तित्तीसन्नयराए जं किंचि मिच्छए, मण-दुक्कडाए,

tittisannayarāe jaṃ kiñci micchae, maṇa-dukkadāe,

वय-दुक्कडाए, काय-दुक्कडाए, कोहाए, माणाए,

vaya-dukkadāe, kāya-dukkadāe, kohāe, māṇāe,

मायाए, लोभाए, सव्व-कालिआए, सव्वा-मिच्छो-वयाराए,

māyāe, lobhāe, savva-kālīāe, savvā-miccho-vayārāe,

सव्व-धम्म-इक्कमणाए आसायणाए जो मे अइयारो कओ,

savva-dhammā-ikkamaṇāe āsāyaṇāe jo me aiyāro kao,

तस्स खमा-समणो! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि,

tassa khamā-samaṇo! paḍikkamāmi, nindāmi, garihāmi,

अप्पाणं वोसिरामि.१

appāṇaṃ vosirāmi.1

Sadguru vandana

अहो! अहो! श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार;

aho! aho! śrī sadaguru, karuṇā sindhu apāra;

आ पामर पर प्रभु करो, अहो! अहो! उपकार ।

ā pāmara para prabhu karo, aho! aho! upakāra ।

शुं प्रभुचरणकने धरुं? आतमाथी सहु हिन;

śum̐ prabhucaraṇakane dharum̐? ātamāthī sahu hina;

ते तो प्रभुए आपीयो, वरतु चरणाधीन ।

te to prabhue āpīyo, varatu caraṇādhīna ।

आ देहादि आजथी, वरतो प्रभु आधीन;

ā dehādi ājathī, varato prabhu ādhīna;

दास, दास हुं दास छुं, आप प्रभुनो दीन ।

dāsa, dāsa hum̐ dāsa chum̐, āpa prabhuno dīna ।

शत स्थानक समाजवीने, भिन्न बताव्यो आप;

śata sthānaka samājavīne, bhinna batāvvyo āpa;

म्यान थकि तरवारवत्, ए उपकार अमाप ।

myāna thaki taravārvat, e upakāra amāpa ।

जे स्वरुप समज्या विना, पाम्यो दुःख अनन्त;

je svarupa samajyā vinā, pāmyo duḥkha ananta;

समजाव्युं ते पद नमु, श्री सद्गुरु भगवन्त ।

samajāvyum̐ te pada namu, śrī sadguru bhagavanta ।

परमपुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम;

paramapurusa prabhu sadguru, parama jñāna sukhadhāma;

जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम ।

jeṇe āpyum̐ bhāna nija, tene sadā praṇāma ।

देह छतां जेनी दशा, वरते देहातीत;

deha chatām̐ jenī daśā, varate dehātīta;

ते ज्ञानीनां चरणमां, हो वंदन अगणित ।

te jñānīnām̐ caraṇamām̐, ho vandana agaṇita ।

Pratikraman and Kshama Sutras

Iriyavahiya

इच्छा-कारेण संदिसह भगवन्! इरियावहियं

icchā-kāreṇa sandisaha bhagavan! iriyāvahiyaṃ

पडिक्कमामि? इच्छं, इच्छामि पडिक्कमिउं. १

paḍikkamāmi? icchaṃ, icchāmi paḍikkamiuṃ. 1

इरियावहियाए, विराहणाए. २

iriyāvahiyāe, virāhaṇāe. 2

गमणागमणे. ३

gamaṇāgamaṇe. 3

पाण-क्कमणे, बीय-क्कमणे, हरिय-क्कमणे, ओसा-उत्तिंग-

pāṇa-kkamaṇe, bīya-kkamaṇe, hariya-kkamaṇe, osā-uttiṅga-

पणग-दग-मट्टी-मक्कडा-संताणा-संकमणे. ४

paṇaga-daga-maṭṭī-makkaḍā-santaṇā-saṅkamaṇe. 4

जे मे जीवा विराहिया. ५

je me jīvā virāhiyā. 5

एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया. ६

egindiyā, beindiyā, teindiyā, caurindiyā, pañcindiyā. 6

अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया,

abhihayā, vattiyā, lesiyā, saṅghāiyā, saṅghaṭṭiyā,

परियाविया, किलामिया, उदविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया,

pariyāviyā, kilāmiyā, uddaviyā, ṭhāṇāo ṭhāṇaṃ saṅkāmiyā,

जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं. ७

jīviyāo vavaroviyā, tassa micchā mi dukkaḍaṃ. 7

Saat lakh

सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख
sāta lākha pṛthvīkāya, sāta lākha apkāya, sāta lākha
तेउकाय, सात लाख वाउकाय, दस लाख प्रत्येक
teukāya, sāta lākha vāukāya, dasa lākha pratyeka
वनस्पति-काय, चौदह लाख साधारण वनस्पति-काय,
vanaspati-kāya, caudaha lākha sādharmaṇa vanaspati-kāya,
दो लाख द्वीन्द्रिय, दो लाख त्रीन्द्रिय, दो लाख चउरिन्द्रिय,
do lākha dvīndriya, do lākha trīndriya, do lākha caurindriya,
चार लाख देवता, चार लाख नारकी,
cāra lākha devatā, cāra lākha nārakī,
चार लाख तिर्यच पंचेन्द्रिय, चौदह लाख मनुष्य-
cāra lākha tiryāñca pañcendriya, caudaha lākha manuṣya-
इस तरह चौरासी लाख जीव-योनि में से मेरे जीव ने
isa taraha caurāsī lākha jīva-yoni meṁ se mere jīva ne
जो कोई जीव-हिंसा की हो, करायी हो, करते हुए का
jo koī jīva-himsā kī ho, karāyī ho, karate hue kā
अनुमोदन किया हो, उन सब का मन-वचन-काया से
anumodana kiyā ho, una saba kā mana-vacana-kāyā se
मिच्छा मि दुक्कडं.१
micchā mi dukkaḍam.1

Adhaar paapsthanak

पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्ता-दान,
pahalā prāṇātipāta, dūsarā mṛṣāvāda, tīsarā adattā-dāna,
चौथा मैथुन, पांचवां परिग्रह, छठा क्रोध,

cauthā maithuna, pāñcavāṃ parigraha, chaṭhā krodha,
 सांतवां मान, आठवां माया, नौवां लोभ, दसवां राग,
 sāntavāṃ māna, āṭhavāṃ māyā, nauvāṃ lobha, dasavāṃ rāga,
 ग्यारहवां द्वेष, बाहरवां कलह, तेरहवां
 gyārahavāṃ dveṣa, bāharavāṃ kalaha, terahavāṃ
 अभ्याख्यान, चौदहवां पैशुन्य, पन्द्रहवां रति-अरति,
 abhyākhyāna, caudahavāṃ paiśunya, pandrahavāṃ rati-arati,
 सोलहवां पर-परिवाद, सत्रहवां माया-मृषा-वाद,
 solahavāṃ para-parivāda, satrahavāṃ māyā-mṛṣā-vāda,
 अठारहवां मिथ्यात्व-शल्य इन अठारह पाप-स्थानों
 aṭhārahavāṃ mithyātva-śalya ina aṭhāraha pāpa-sthānom
 में से मेरे जीव ने जिस किसी पाप का सेवन किया हो,
 meṃ se mere jīva ne jisa kisī pāpa kā sevana kiyā ho,
 कराया हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो,
 karāyā ho, karate hue kā anumodana kiyā ho,
 उन सब का मन-वचन-काया से मिच्छा मि दुक्कडं. १
 una saba kā mana-vacana-kāyā se micchā mi dukkaḍaṃ. 1

Vandittu sutra

वंदित्तु सव्व-सिद्धे, धम्मयारिए अ सव्व-साहू अ.
 vandittu savva-siddhe, dhammāyarie a savva-sāhū a.
 इच्छामि पडिक्कमिउं, सावग-धम्माइआरस्स. १
 icchāmi paḍikkamium, sāvaga-dhammāiārassa. 1
 जो मे वयाइयारो, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ.
 jo me vayāiyāro, nāṇe taha daṃsaṇe caritte a.
 सुहुमो व बायरो वा, तं निंदे तं च गरिहामि. २
 suhumo va bāyaro vā, taṃ ninde taṃ ca garihāmi. 2

दुविहे परिग्गहम्मि, सावज्जे बहुविहे अ आरंभे,

duvihe pariggahammi, sāvajje bahuvihe a ārambhe,

कारावणे अ करणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. ३

kārāvaṇe a karaṇe, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 3

जं बद्धमिदिएहिं, चउहिं कसाएहिं अप्पसत्थेहिं.

jaṃ baddhamindiehiṃ, cauhiṃ kasāehiṃ appasatthehiṃ.

रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि. ४

rāgeṇa va doseṇa va, taṃ ninde taṃ ca garihāmi. 4

आगमणे-निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे.

āgamaṇe-niggamaṇe, ṭhāṇe caṅkamaṇe aṇābhoge.

अभिओगे अ निओगे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. ५

abhioge a nioge, paḍikkamme desiaṃ savvaṃ. 5

संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु.

saṅkā kaṅkha vigicchā, pasamsa taha santhavo kuliṅgīsu.

सम्मत्तस्स-इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. ६

sammattassa-iāre, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 6

छक्काय-समारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा.

chakkāya-samārambhe, payaṇe a payāvaṇe a je dosā.

अत्तट्ठा या परट्ठा, उभयट्ठा चेव तं निंदे. ७

attaṭṭhā yā paraṭṭhā, ubhayatṭhā ceva taṃ ninde. 7

पचंण्हमणु-व्वयाणं, गुण-व्वयाणं च तिण्हमइयारे.

pacaṇṇhamaṇu-vvayāṇaṃ, guṇa-vvayāṇaṃ ca tiṇhamaiyāre.

सिक्खाणं च चउण्हं, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. ८

sikkhāṇaṃ ca cauṇhaṃ, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 8

पढमे अणु-व्वयम्मि, थूलग-पाणाइवाय-विरईओ.

paḍhame aṇu-vvayammi, thūlaga-pāṇāivāya-viraīo.

आयरिअ-मप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं. ९

āyaria-mappasatthe, ittha pamāya-ppasaṅgeṇaṃ. 9

वह-बंध-छवि-च्छेए, अइभारे भत्त-पाण-वुच्छेए.

vaha-bandha-chavi-cchee, aibhāre bhatta-pāṇa-vucchee.

पढम-वयस्स-इयारे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. १०

paḍhama-vayassa-iyāre, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 10

बीए अणु-व्वयम्मि, परिथूलग-अलिय-वयण-विरइओ,

bīe aṇu-vvayammi, parithūlaga-aliya-vayaṇa-viraio,

आयरिअ-मप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं. ११

āyaria-mappasatthe, ittha pamāya-ppasaṅgeṇaṃ. 11

सहसा रहस्स दारे, मोसुवएसे अ कूडलेहे अ.

sahasā rahassa dāre, mosuvaese a kūḍalehe a.

बीय-वयस्स-इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. १२

bīya-vayassa-iāre, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 12

तइए अणु-व्वयम्मि, थूलग-परदव्व-हरण-विरईओ.

taie aṇu-vvayammi, thūlaga-paradavva-haraṇa-viraio.

आयरिअ-मप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं. १३

āyaria-mappasatthe, ittha pamāya-ppasaṅgeṇaṃ. 13

तेनाहड-प्पओगे, तप्पडिरूवेअ विरुद्ध-गमणे ।

tenāhaḍa-ppaoge, tappāḍirūvea viruddha-gamaṇe ।

कूड- तुल कूड-माणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. १४

kūḍa- tula kūḍa-māṇe, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 14

चउत्थे अणु-व्वयंमि, निच्चं परदार-गमण-विरईओ.

cautthe aṇu-vvayammi, niccaṃ paradāra-gamaṇa-viraio.

आयरिय-मप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं. १५

āyariya-mappasatthe, ittha pamāya-ppasaṅgeṇaṃ. 15

अपरिग्गहिआ-इत्तर, अणंग-विवाह-तिव्व-अणुरागे.

apariggahiā-ittara, aṇaṅga-vivāha-tivva-aṇurāge.

चउत्थ-वयस्स-इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. १६

cauttha-vayassa-iāre, paḍikkme desiaṃ savvaṃ. 16

इत्तो अणु-व्वए पंचमंमि, आयरिअ-मप्पसत्थम्मि,

itto aṇu-vvāe pañcamammi, āyaria-mappasatthammi,

परिमाण-परिच्छेए, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं. १७

parimāṇa-paricchee, ittha pamāya-ppasaṅgeṇaṃ. 17

धण-धन्न-खित्त-वत्थू, रूप-सुवन्ने अ कुविअ-परिमाणे.

dhaṇa-dhanna-khitta-vatthū, rупpa-suvanṇe a kuvia-parimāṇe.

दुपए चउप्पयंमि य, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. १८

dupae cauppayaṃmi ya, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 18

गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उड्ढं अहे अ तिरिअं च.

gamaṇassa u parimāṇe, disāsu uḍḍhaṃ ahe a tiriaṃ ca.

वुड्ढी सइ-अंतरद्धा, पढमम्मि गुण-व्वए निंदे. १९

vuḍḍhī sai-antaraddhā, paḍhamammi guṇa-vvāe ninde. 19

मज्जम्मि अ मंसम्मि अ, पुप्फे अ फले अ गंध-मल्ले अ.

majjammi a maṃsammi a, pupphe a phale a gandha-malle a.

उवभोग-परिभोगे, बीअम्मि गुण-व्वए निंदे. २०

uvabhoga-paribhoge, bīammi guṇa-vvāe ninde. 20

सचित्ते पडिबद्धे, अपोलि-दुप्पोलिअं च आहारे.

sacitte paḍibaddhe, apoli-duppoiliaṃ ca āhāre.

तुच्छोसहि-भक्खणया, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. २१

tucchosahi-bhakkhaṇayā, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 21

इंगाली-वण-साडी, भाडी-फोडी सुवज्जए कम्मं.

iṅgālī-vaṇa-sādī, bhādī-phoḍī suvajjae kammaṃ.

वाणिज्जं चैव दंत-लक्ख-रस-केस-विस-विसयं. २२

vāṇijjaṃ ceva danta-lakkha-rasa-kesa-visa-visayaṃ. 22

एवं खु जंत-पिल्लण कम्मं, निल्लंछणं च दव-दाणं.

evaṃ khu janta-pillaṇa kammaṃ, nillañchaṇaṃ ca dāva-dāṇaṃ.

सर-दह-तलाय-सोसं, असई-पोसं च वज्जिजा. २३

sara-daha-talāya-sosaṃ, asaī-posaṃ ca vajjijjā. 23

सत्थग्गि-मुसल-जंतग-तण-कट्ठे मंत-मूल-भेसज्जे.

satthaggi-musala-jantaga-taṇa-katṭhe manta-mūla-bhesajje.

दिन्ने दवाविए वा, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. २४

dinne davāvie vā, paḍikkme desiaṃ savvaṃ. 24

न्ह्हाणु-व्वट्टण-वन्नग-विलेवणे सद्द-रूव-रस-गंधे.

nhāṇu-vvattṇa-vannaga-vilevaṇe sadda-rūva-rasa-gandhe.

वत्थासण-आभरणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं. २५

vattḥasaṇa-ābharāṇe, paḍikkame desiaṃ savvaṃ. 25

कंदप्पे कुक्कुइए, मोहरि-अहिगरण-भोग-अइरित्ते.

kandappe kukkuie, mohari-ahigaraṇa-bhoga-airitte.

दंडम्मि अणट्ठाए, तइअम्मि-गुण-व्वए निंदे. २६

daṇḍammi aṇaṭṭhāe, taiaṃmi-guṇa-vvāe ninde. 26

तिविहे दुप्पणिहाणे, अण-वट्ठाणे तहा सइ-विहूणे.

tivihe duppanihāṇe, aṇa-vaṭṭhāṇe tahā sai-vihūṇe.

सामाइय-वितह-कए, पढमे सिक्खा-वए निंदे. २७

sāmāiya-vitaha-kae, paḍhame sikkhā-vāe ninde. 27

आणवणे पेसवणे, सद्दे रूवे अ पुग्गल-क्खेवे.

āṇavaṇe pesavaṇe, sadde rūve a puggala-kkheve.

देसावगासिअम्मि बीए सिक्खा-वए निंदे. २८

desāvagāsiammaṃmī bīe sikkhā-vāe ninde. 28

संथारुच्चार-विहि-पमाय तह च्चैव भोयणा-भोए.

santhāruccāra-vihi-pamāya taha ceva bhoyaṇā-bhoe.

पोसह-विहि-विवरीए, तइए सिक्खा-वए निंदे. २९

posaha-vihi-vivarīe, taie sikkhā-vāe ninde. 29

सच्चित्ते निक्खिववणे, पिहिणे ववएस-मच्छरे च्चैव.

sacitte nikkhivaṇe, pihiṇe vavaesa-macchare ceva.

कालाइक्कम-दाणे, चउत्थे सिक्खा-वए निंदे. ३०

kālāikkama-dāṇe, cautthe sikkhā-vāe ninde. 30

सुहिएसु अ दुहिएसु अ, जा मे अस्संजएसु अणुकंपा.

suhiesu a duhiesu a, jā me assañjaesu aṇukampā.

रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि. ३१

rāgeṇa va doseṇa va, taṃ ninde taṃ ca garihāmi. 31

साहसु संविभागो, न कओ तव-चरण-करण-जुत्तेसु.

sāhūsu saṃvibhāgo, na kao tava-caraṇa-karaṇa-juttesu.

संते फासुअ-दाणे, तं निंदे तं च गरिहामि. ३२

sante phāsua-dāṇe, taṃ ninde taṃ ca garihāmi. 32

इह-लोए पर-लोए, जीविअ-मरणे अ आसंस-पओगे.

iha-loe para-loe, jīvia-maraṇe a āsaṃsa-paoge.

पंच-विहो अइआरो, मा मज्झ हुज्ज मरणंते. ३३

pañca-viho aiāro, mā majjha hujja maraṇante. 33

काएण काइअस्स, पडिक्कमे वाइअस्स वायाए.

kāeṇa kāiassa, paḍikkame vāiassa vāyāe.

मणसा माणसिअस्स, सव्वस्स वयाइआरस्स. ३४

maṇasā maṇasiassa, savvassa vayāaiārassa. 34

वंदण-वय-सिक्खा-गारवेसु, सन्ना-कसाय-दंडेसु.

vandaṇa-vaya-sikkhā-gāravesu, sannā-kasāya-daṇḍesu.

गुत्तीसु अ समिईसु अ, जो अइआरो अ तं निंदे. ३५

guttīsu a samiīsū a, jo aiāro a taṃ ninde. 35

सम्मद्दिट्ठ जीवो, जइ वि हु पावं समायरइ किंचि.

sammaddiṭṭhi jīvo, jai vi hu pāvaṃ samāyarai kiñci.

अप्पो सि होइ बंधो, जेण न निद्धंधसं कुणइ. ३६

appo si hoi bandho, jeṇa na niddhandhasaṃ kuṇai. 36

तं पि हु सपडिक्कमणं, सप्परिआवं सउत्तर-गुणं च.

taṃ pi hu sapaḍikkamaṇaṃ, sappariāvaṃ sauttara-guṇaṃ ca.

खिप्पं उवसामेइ, वाहि व्व सुसिक्खिओ विज्जो. ३७

khippam uvasāmei, vāhi vva susikkhio vijjo. 37

जहा विसं कुट्ठ-गयं, मंत-मूल-विसारया.

jahā visam kutṭha-gayaṃ, manta-mūla-visārayā.

विज्जा हणंति मंतेहिं, तो तं हवइ निविस्सं. ३८

vijjā haṇanti mantehiṃ, to taṃ havai nivissam. 38

एवं अट्ठ-विहं कम्मं, राग-दोस-समज्जिअं.

eavam aṭṭha-vihaṃ kammaṃ, rāga-dosa-samajjiam.

आलोअंतो अ निंदंतो, खिप्पं हणइ सुसावओ. ३९

āloanto a nindanto, khippam haṇai susāvaō. 39

कय-पावो वि मणुस्सो, आलोइअ निंदिअ गुरु-सगासे.

kaya-pāvo vi maṇusso, āloia nindia guru-sagāse.

होइ अइरेग-लहुओ, ओहरिअ-भरुव्व भारवहो. ४०

hoi airega-lahuō, oharia-bharuvva bhāravaho. 40

आवस्सएण एण, सावओ जइवि बहुरओ होइ.

āvassaena eṇa, sāvaō jaivi bahuraō hoi.

दुक्खाणमंत-किरिअं, काही अचिरेण कालेण. ४१

dukkhāṇamanta-kiriam, kāhī acireṇa kāleṇa. 41

आलोअणा बहुविहा, न य संभरिआ पडिक्कमण-काले.

āloaṇā bahuvihā, na ya sambhariā paḍikkamaṇa-kāle.

मूल-गुण-उत्तर-गुणे, तं निंदे तं च गरिहामि. ४२

mūla-guṇa-uttara-guṇe, taṃ ninde taṃ ca garihāmi. 42

तस्स धम्मस्स केवलि-पन्नत्तस्स, अब्भुट्ठिओ मि

tassa dhammassa kevali-pannattassa, abbhuṭṭhio mi

आराहणाए, विरओ मि विराहणाए.

ārāhaṇāe, virao mi virāhaṇāe.

तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं. ४३

tiviheṇa paḍikkanto, vandāmi jiṇe cauvvīsam. 43

जावंति चेइआई, उड्ढे अ अहे अ तिरिअ-लोए अ.

jāvanti ceiāim, uḍḍhe a ahe a tiria-loe a.

सव्वाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं. ४४

savvāim tāim vande, iha santo tattha santāim. 44

जावंत के वि साहु, भरहेरवय-महाविदेहे अ.

jāvanta ke vi sāhū, bharahevavaya-mahāvidehe a.

सव्वेसिं तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं. ४५

savvesim tesim paṇao, tivihēṇa tidaṇḍa-virayāṇam. 45

चिर-संचिय-पाव-पणासणीइ, भव-सय-सहस्स-महणीए.

cira-sañciya-pāva-paṇāsaṇīi, bhava-saya-sahassa-mahaṇīe.

चउवीस-जिण-विणिग्गय-कहाइ, वोलंतु मे दिअहा. ४६

cauvīsa-jīṇa-viṇiggaya-kahāi, volantu me diahā. 46

मम मंगल-मरिहंता, सिद्धा साहु सुअं च धम्मो अ.

mama maṅgala-marihantā, siddhā sāhu suam ca dhammo a.

सम्म-दिट्ठि देवा, दिंतु समाहिं च बोहिं च. ४७

samma-ddiṭṭhi devā, dintu samāhim ca bohim ca. 47

पडिसिद्धाणं करणे, किच्चाण-मकरणे पडिक्कमणं.

paḍisiddhāṇam karaṇe, kiccāṇa-makarāṇe paḍikkamaṇam.

असद्दहणे अ तथा, विवरीअ-परूवणाए अ. ४८

asaddahaṇe a tahā, viavarīa-parūvaṇāe a. 48

खामेमि सव्व-जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे.

khāmemi savva-jīve, savve jīvā khamantu me.

मित्ती मे सव्व-भूएसु, वेरं मज्झ न केणइ. ४९

mittī me savva-bhūesu, veram majjha na keṇai. 49

एवमहं आलोइअ, निंदिअ-गरहिअ-दुगंछिअं सम्मं.

evamaham āloia, nindia-garahia-dugañchiam sammam.

तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं. ५०

tivihēṇa paḍikkanto, vandāmi jīṇe cauvvīsam. 50

Khamemi

खामेमि सव्व-जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे

khāmemi savva-jīve, savve jīvā khamantu me

मिक्ती मे सव्व-भूएसु, वेरं मज्झ न केणइ ।

mittī me savva-bhūesu, veraṃ majjha na keṇai ।

एवमहं आलोइअ, निंदिअ-गरहिअ-दुगंछिअं सम्मं

evamaham āloia, nindia-garahia-dugañchiam sammaṃ

तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥

tiviheṇa paḍikkanto, vandāmi jiṇe cauvvīsam ॥

Jam jam manen

जं जं मणेण बद्धं

jam jam maṇeṇa baddham

जं जं वायेण भासियं पावं

jam jam vāyeṇa bhāsiyam pāvaṃ

जं जं कायेन कयं

jam jam kāyena kayam

मिच्छामि दुक्कडं तस्स

micchāmi dukkaḍam tassa

Khamiya khamavia

खमिय खमाविय मइ खम सव्वह जीवा निकाय

khamiya khamāviya mai khama savvaha jīvā nikāya

सिद्धह साख आलोयणह मुज्जवैर न भाव

siddhaha sākha āloyaṇaha mujjavaira na bhāva

Stotras

Mahaveerashtakam Stotra

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः

yadiye caitanye mukura iva bhāvāścīdacitaḥ

समं भान्ति ध्रौव्य व्यय-जनि-लसन्तोऽन्तरहिताः ।

samaṁ bhānti dhrauvya vyaya-jani-lasanto'antarahitāḥ ।

जगत्साक्षी मार्ग-प्रकटन परो भानुरिव यो

jagatsākṣī mārga-prakaṭana paro bhānuriva yo

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥१॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me । । 1 । ।

अतामं यच्चक्षुः कमल-युगलं स्पन्दं-रहितं

atāmaṁ yaccakṣuḥ kamala-yugalaṁ spandaṁ-rahitaṁ

जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि ।

janāṅkopāpāyaṁ prakṭayati vābhyantaramapi ।

स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला

sphuṭaṁ mūrtiryasya praśamitamayī vātivimalā

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥२॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me । । 2 । ।

नमन्नाकेन्द्राली मुकुट-मणि-भा जाल जटिलं

namannākendrālī mukuṭa-maṇi-bhā jāla jaṭilaṁ

लसत्पादाम्भोज-द्वयमिह यदीयं तनुभृतां

lasatpādāmbhoja-dvayamiha yadīyaṁ tanubhṛtāṁ

भवज्ज्वाला-शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि

bhavajjvālā-śāntyai prabhavati jalaṁ vā smṛtamapi

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥३॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me | | 3 | |

यदर्च्चा-भावेन प्रमुदित-मना दर्दुर इह

yadarccā-bhāvena pramudita-manā dardura iha

क्षणादासीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्धः सुख-निधिः ।

kṣaṇādāsītsvargī guṇa-gaṇa-samṛddhaḥ sukha-nidhiḥ ।

लभन्ते सद्भक्ता शिव-सुख समाजं किमुतदा

labhante sadbhaktā śiva-sukha samājam kimutadā

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥४ ॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me | | 4 | |

कनकस्वर्णाभासोऽप्यपगत-तनुर्ज्ञान-निवहो

kanakasvarṇābhāso'pyapagata-tanurjñāna-nivaho

विचित्रात्माप्येको नृपति-वर-सिद्धार्थ-तनयः ।

vicitrātmāpyeko nṛpati-vara-siddhārtha-tanayaḥ ।

अजन्मापि श्रीमान् विगत-भव-रागोद्भुत-गतिर्

ajanmāpi śrīmān vigata-bhava-rāgodbhuta-gatir

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥५ ॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me | | 5 | |

यदीया वाग्वाणी विविध-नय-कल्लोल-विमला

yadiyā vāgvāṇī vividha-naya-kallola-vimalā

बृहज्जनाम्भोधिर्जगति जनताम् या स्नपयति ।

bṛhajjanāmbhodhirjagati janatām yā snapayati ।

इदानीमप्येषा बुध-जन-मरालैः परिचिता

idānīmapyēṣā budha-jana-marālaiḥ paricitā

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥६ ॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me | | 6 | |

अनिवारोद्रेक स्त्रिभुवन-जयी काम-सुभट

anirvārodreka stribhuvana-jayī kāma-subhaṭa

कुमारावस्थायामपि निज-बालाद्यो न विजितः ।

kumārāvasthāyāmapī nija-bālādyo na vijitaḥ |

स्फुरन्नित्यानन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिनः

sphurannityānanda-prāśama-pada-rājyāya sa jinaḥ

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥७॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me | | 7 | |

महामोहान्तक-प्रशमन-परकस्मिक-भिषक्

mahāmohāntaṅka-prāśamana-parakasmika-bhiṣak

निरापेक्षो बन्धु विदित-महिमा मंगलकर ।

nirāpekṣo bandhu vidita-mahimā maṅgalakara |

शरण्यः साधुनां भव-भयभृतामुक्तमगुणो

śaraṇyaḥ sādhunām bhava-bhayabhṛtāmuktamaguṇo

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥८॥

mahāvīra-svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me | | 8 | |

महावीराष्टक स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं

mahāvīrāṣṭaka stotraṁ bhaktyā bhāgendunā kṛtaṁ

यः पठेच्छृणुयाच्चापि स याति परमाम् गतिम् ॥९॥

yaḥ paṭhecchṛṇuyāccāpi sa yāti paramām gatim | | 9 | |

Bhaktaamar Stotra

भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा -

bhaktāmara praṇatamaulimaṇi prabhāṇā -

मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् ।

mudyotakaṁ dalita pāpatamovitānam |

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा -

samyak praṇamya jinapādayugaṁ yugādā -

वालंबनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥

vālabanaṁ bhavajale patatām janānām | | 1 | |

यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा-
 yaḥ saṁstutaḥ sakalavāṅmaya tattvabodhā-
 दुद्भूतबुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः ।
 dudbhūtabuddhi paṭubhiḥ suralokanāthaiḥ ।
 स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः
 stotrairjagattritaya cittaharairudāraiḥ
 स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥
 stoṣye kilāhamapi taṁ prathamam jinendram ॥ 2 ॥
 तुभ्यं नमस्त्रि-भुवनार्ति-हराय नाथ
 tubhyaṁ namastri-bhuvanārti-harāya nātha
 तुभ्यं नमः क्षितितला-मल-भूषणाय ।
 tubhyaṁ namaḥ kṣititalā-mala-bhūṣaṇāya ।
 तुभ्यं नमस्त्रि-जगतः परमेश्वराय,
 tubhyaṁ namastri-jagataḥ parameśvarāya,
 तुभ्यं नमो जिन! भवोदधि-शोषणाय ॥२३॥
 tubhyaṁ namo jina! bhavodadhi-śoṣaṇāya ॥ 23 ॥

Shanti (kalash) Anushthan

Uvasaggaharam

उवसग्ग-हरं पासं, पासं वंदामि कम्म-घण-मुक्कं.
 uvasagga-haram pāsaṁ, pāsaṁ vandāmi kamma-ghaṇa-mukkaṁ.
 विसहर-विस-निन्नासं, मंगल-कल्लाण-आवासं. १
 visahara-visa-ninnāsaṁ, maṅgala-kallāṇa-āvāsaṁ. 1
 विसहर-फुलिंग-मंतं, कंठे धारेइ जो सया मणुओ.
 visahara-phuliṅga-mantaṁ, kaṇṭhe dhārei jo sayā maṇuo.
 तस्स गह-रोग-मारी, दुट्ठ-जरा जंति उवसामं. २

tassa gaha-roga-mārī, duṭṭha-jarā janti uvasāmaṃ. 2

चिट्ठउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामो वि बहु-फलो होइ.

ciṭṭhau dūre manto, tujjha paṇāmo vi bahu-phalo hoi.

नर-तिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुक्ख-दोगच्चं. ३

nara-tiriesu vi jīvā, pāvanti na dukkha-dogaccam. 3

तुह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि-कप्प-पायव-ब्भहिए.

tuha sammatte laddhee, cintāmaṇi-kappa-pāyava-bbhahiee.

पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं. ४

pāvanti avigghenam, jīvā ayarāmaram ṭhāṇam. 4

इय संथुओ महायस! भत्ति-ब्भर-निब्भरेण हिअएण.

iya santhuo mahāyasa! bhatti-bbhara-nibbhareṇa hiaeṇa.

ता देव! दिज्ज बोहिं, भवे भवे पास! जिण-चंद!. ५

tā deva! dijja bohiṃ, bhave bhave pāsa! jiṇa-canda!. 5

Bruhad shanti

भो भो भव्याः! शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतद्, ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोरार्हता भक्तिभाजः! तेषां
शांतिर्भवतुभवतामर्हदादिप्रभावा-दारोग्य श्रीधृतिमतिकरी क्लेशविध्वंसहेतुः - १. भो भो भव्यलोका!
इह हि भरतैरावतविदेहसंभवानां समस्ततीर्थकृतां जन्मन्यासनप्रकम्पानन्तरमवधिना विज्ञाय,
सौधर्माधिपतिः सुधोषाघण्टाचालनानन्तरं सकलसुरा सुरेन्द्रैः सह समागत्य, सविनयमर्हद्भट्टारकं
गृहीत्वा, गत्वा कनकाद्रिशृङ्गे विहितजन्माभिषेकः शांतिमुद्धोषयति, यथाततोऽहम् "कृतानुकारमिति"
कृत्वा, "महाजनो येन गतः स पन्थाः" इति भव्यजनैः सह समेत्यः स्नात्रपीठे स्नात्रं विधाय,
शांतिमुद्धोषयामि तत्पूजायात्रास्नात्रादि महोत्सवानन्तरमिति कृत्वा, कर्णं दत्वा निशम्यतां निशम्यतां
स्वाहा ॥

bho bho bhavyāḥ! śṛṇuta vacanam prastutam sarvametad, ye yātrāyām
tribhuvanagurorārhatā bhaktibhājah! teṣām
śāntirbhavatubhavatāmarhadādiprabhāvā-dārogya śrīdhṛtimatikarī

kleśavidhvaṁsahetuḥ - 1. bho bho bhavyalokā! iha hi
bharatairāvatavidehasambhavānām samastatīrthakṛtām
janmanyāsanaprakampānantaramavadhinā vijñāya, saudharmādhipatiḥ
sudhoṣādhaṅṭācālanānantaram sakalasurendraiḥ saha samāgatya,
savinayamarhadbhaṭṭārakaṁ gṛhītvā, gatvā kanakādriśṛḅge
vihitajanmābhiṣekaḥ śāntimudghoṣayati, yathātato'aham "kṛtānukāramiti"
kṛtvā, "mahājano yena gataḥ sa panthāḥ" iti bhavyajanaiḥ saha sametyaḥ
snātrapīṭhe snātram vidhāya, śāntimudghoṣayāmi tatpūjyātrāsnātrādi
mahotsavānantaramiti kṛtvā, karṇam datvā niśamyatām niśamyatām
svāhā । ।

ॐ पुण्याहं पुण्याहं, प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्तोर्हन्तः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनस्त्रिलोकनाथा
स्त्रिलोकमहितास्त्रिलोकपूज्यास्त्रिलोकेश्वरास्त्रिलोको-द्योतकराः ॥ ॐ ऋषभ-अजित-संभव-
अभिनन्दन-सुमति-पद्मप्रभ-सुपार्श्व-चन्द्रप्रभ-सुविधि-शीतल-श्रेयांस-वासुपूज्य-विमल-अनंत-
धर्म-शांति-कुंथु-अर-मल्लि-मुनिसुव्रत-नमि-नेमि-पार्श्व-वर्द्धमानान्ता जिनाः शान्ताः शान्तिकरा
भवन्तु स्वाहा ॥ ॐ मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कान्तारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं
स्वाहा ॥ ॐ ह्रीं श्रीं धृतिमतिकीर्ति कांतिबुद्धिलक्ष्मी मेधा विद्यासाधन प्रवेशनिवेशनेषु,
सुगृहीतनामानो जयन्तु ते जिनेन्द्राः ॥ ॐ रोहिणी प्रज्ञप्ति-वज्रशंखला-वज्रांकुशी-अप्रतिचक्रा-
पुरुषदत्ता-काली-महाकाली-गौरी-गांधारी-सर्वास्त्रा-महाजवाला-मानवी-वैरोट्या-अच्छुप्ता-
मानसी-महामानसी षोडश विद्यादेव्यो रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा ॥

om puṇyāham puṇyāham, prīyantām prīyantām bhagavantorhantaḥ
sarvajñāḥ sarvadarśinastrilokanāthā
strilokamahitāstrilokapūjyāstrilokeśvarāstriloko-dyotakarāḥ । । om
ṛṣabha-ajita-sambhava-abhinandana-sumati-padmaprabha-supārśva-
candraprabha-suvidhi-śītala-śreyāmsa-vāsupūjya-vimala-ananta-dharma-
śānti-kunthu-ara-malli-munisuvrata-nami-nemi-pārśva-varddhamānāntā
jināḥ śāntāḥ śāntikarā bhavantu svāhā । । om munayo munipravarā
ripuvijaya durbhikṣa kāntāreṣu durgamārgēṣu rakṣantu vo nityam svāhā
। । om hrīm śrīm dhṛtimatikīrti kāntibuddhilakṣmī medhā vidyāsādhana
praveśaniveśaneṣu, sugṛhītanāmāno jayantu te jinendrāḥ । । om rohiṇī
prajñapti-vajraśṛṅkhalā-vajrāṅkuśī-apraticakrā-puruṣadattā-kālī-

mahākālī-gaurī-gāndhārī-sarvāstrā-mahājavālā-mānavī-vairoṭyā-
acchuptā-mānasī-mahāmānasī ṣoḍaśa vidyādevyo rakṣantu vo nityam
svāhā ।।

ॐ आचार्योपाध्याय प्रभृतिचातुर्वर्णस्य श्रीश्रमण संघस्य शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु.

om ācāryopādhyāya prabhṛticāturvarṇasya śrīśramaṇa saṅghasya
śāntirbhavatu tuṣṭirbhavatu puṣṭirbhavatu.

ॐ ग्रहाश्चन्द्रसूर्याङ्गारक-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनैश्चर-राहु-केतुसहिताः सलोकपालाः सोम-यम-
वरुण-कुबेर-वासवादित्यस्कन्द-विनायकोपेता, ये चान्येऽपि ग्राम-नगर-क्षेत्र-देवतादयस्ते सर्वे
प्रीयन्तां प्रीयन्तां अक्षीणकोशकोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा.

om grahāścandrasūryāṅgāraka-budha-bṛhaspati-śukra-śanaiścara-rāhu-
ketusahitāḥ salokapālāḥ soma-yama-varuṇa-kubera-vāsavādityaskanda-
vināyakopetā, ye cānye'pi grāma-nagara-kṣetra-devatādayaste sarve
prīyantāṃ prīyantāṃ akṣiṇakośakoṣṭhāgārā narapatayaśca bhavantu
svāhā.

ॐ पुत्र-मित्र-भ्रातृ-कलत्र-सृहृत्-स्वजन-संबन्धि बन्धुवर्गसहिता नित्यं चामोदप्रमोदकारिणः
अस्मिंश्चभूमण्डल आयतननिवासि साधुसाध्वीश्रावकश्राविकाणां रोगो-पसर्ग-व्याधि-दुःख-
दुर्भिक्षदौर्मनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु.

om putra-mitra-bhrāṭṛ-kalatra-sṛhṛt-svajana-sambandhi
bandhuvargasahitā nityam cāmodapramodakāriṇaḥ
asmimścabhūmaṇḍala āyatananivāsi sādhusādhvīśrāvakaśrāvikanāṃ
rogo-pasarga-vyādhi-duḥkha-durbhikṣadaurmanasyopaśamanāya
śāntirbhavatu.

ॐ तुष्टिपुष्टिऋद्धिवृद्धिमांगल्योत्सवाः सदा प्रादुर्भूतानि, पापानि शाम्यन्तु दुरितानि, शत्रवः पराङ्मुखा
भवन्तु स्वाहा । श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्तिविधायने त्रैलोक्यस्यामराधीश,

मुकुटाभ्यर्चिताङ्घ्रये - १. शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान्, शान्तिं दिशतु मे गुरुः शान्तिरेव सदा तेषां,

येषां शान्तिगृहे गृहे -२ उन्मृष्ट-रिष्टदुष्टग्रहगतिदुःस्वप्नदुर्निमित्तादिः संपादित-हितसंपन्नमग्रहणं

जयति शान्तेः -३ श्री संघजगज्जनपद, राजाधिप-राजसन्निवेशानाम्; गोष्टिकपुरमुख्याणां,

व्याहरणैर्व्याहरेच्छान्तिम् -४ श्री श्रमणसंघस्य शान्तिर्भवतु, श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु,

श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु, श्रीगोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु,
 श्रीपौरमुख्याणां शान्तिर्भवतु, श्रीपौरजनस्य शान्तिर्भवतु, श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु, ॐ स्वाहा ॐ
 स्वाहा ॐ श्रीपार्श्वनाथाय स्वाहा, एषा शान्तिः प्रतिष्ठा-यात्रा-स्नात्राद्यवसानेषु शान्तिकलशं गृहीत्वा
 कुंकुम-चंदन-कर्पूरागरु-धूपवास कुसुमांजलि-समेतः स्नात्र चतुष्किकायां श्रीसंघसमेतः शुचि शुचि
 वपुः पुष्पवस्त्र चंदनाभरणालङ्कृतः पुष्पमालां कंठे कृत्वा, शांतिमुद्धोषयित्वा शान्तिपानीयं मस्तके
 दातव्यमिति ॥

om tuṣṭipuṣṭiṛddhivṛddhimāṅgalyotsavāḥ sadā prādurbhūtāni, pāpāni
 śāmyantu duritāni, śatravaḥ parāḍmukhā bhavantu svāhā | śrimate
 śāntināthāya, namaḥ śāntividhāyane trailokyasyāmarādhiśa,
 mukutābhyarcitāṅghraye - 1. śāntiḥ śāntikaraḥ śrīmān, śāntim diśatu me
 gururūḥ śāntireva sadā teṣām, yeṣām śāntigr̥he gr̥he -2 unmr̥ṣṭa-
 riṣṭaduṣṭagrahagatiduhṣvapnadurnimittādiḥ sampādita-
 hitasampannāmagrahaṇam jayati śānteḥ -3 śrī saṅghajagajjanapada,
 rājādhipa-rājasanniveśānām; goṣṭikapuramukhyāṅām,
 vyāharaṇairvyāharecchāntim -4 śrī śramaṇasaṅghasya śāntirbhavatu,
 śrījanapadānām śāntirbhavatu, śrīrājādhipānām śāntirbhavatu,
 śrīrājasanniveśānām śāntirbhavatu, śrīgoṣṭhikānām śāntirbhavatu,
 śrīpauramukhyāṅām śāntirbhavatu, śrīpaurajanasya śāntirbhavatu, śrī
 brahmalokasya śāntirbhavatu, om svāhā om svāhā om śrīpārśvanāthāya
 svāhā, eṣā śāntiḥ pratiṣṭhā-yātrā-snātrādyavasāneṣu śāntikalaśam gr̥hītvā
 kuṅkuma-candana-karpūrāgaru-dhūpavāsa kusumāñjali-sametaḥ snātra
 catuṣkikāyām śrīsaṅghasametaḥ śuci śuci vapuḥ puṣpavastra
 candanābharaṇālaṅkṛtaḥ puṣpamālām kaṅṭhe kṛtvā, śāntimudghoṣayitvā
 śāntipānīyam mastake dātavyamiti | |

नृत्यन्ति नृत्यं मणिपुष्पवर्ष, सृजन्ति गायन्ति च मंगलानि; स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रान्,
 कल्याणभाजो हि जिनाभिषेके -१ शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः; दोषाः
 प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखीभवन्तु लोकाः -२ अहं तित्थयर माया, सिवादेवी तुम्ह नयरनिवासिनी;
 अम्ह सिवं तुम्ह सिवं, असिवोवसमं सिवं भवतु स्वाहा -३ उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः
 मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे -४ सर्वं मंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं

सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् -५ इति बृहच्छान्ति स्तवनम् ॥९॥

nṛtyanti nṛtyaṁ maṇipuṣpavarṣaṁ, sṛjanti gāyanti ca maṅgalāni; stotrāṇi
gotrāṇi paṭhanti mantrān, kalyāṇabhājo hi jinābhiṣeke -1 śivamastu
sarvajagataḥ parahitaniratā bhavantu bhūtagaṇāḥ; doṣāḥ prayāntu nāśaṁ,
sarvatra sukhībhavantu lokāḥ -2 ahaṁ titthayara māyā, sivādevī tumha
nayaranivāsinī; amha sivaṁ tumha sivaṁ, asivovasamaṁ sivaṁ bhavatu
svāhā -3 upasargāḥ kṣayaṁ yānti, chidyante vighnavallayaḥ manaḥ
prasannatāmeti, pūjyamāne jineśvare -4 sarva maṅgalamāṅgalyaṁ,
sarvakalyāṇakāraṇam pradhānaṁ sarvadharmāṇāṁ, jainaṁ jayati
śāsanam -5 iti bṛhacchānti stavanam । । 9 । ।

Shivamastu sarva jagatah

शिवमस्तु सर्व जगतः, परहित निरता भवन्तु भुतगणाः

śivamastu sarva jagataḥ, parahita niratā bhavantu bhutagaṇāḥ

दोषाः प्रायन्तु नाशं, सर्वत्र सुखीः भवन्तु लोकाः ॥

doṣāḥ prāyantu nāśaṁ, sarvatra sukhībhavantu lokāḥ । ।

Pratyakhyan

Chauviahar pratyakhyan

दिवस-चरिमं पच्चक्खाइ चउव्विहंपि आहारं-

divasa-carimaṁ paccakkhāi cauvihampi āhāraṁ-

असणं, पाणं, खाइमं, साइमं अन्नत्थणा-भोगेणं,

asaṇaṁ, pāṇaṁ, khāimaṁ, sāimam annatthaṇā-bhogeṇaṁ,

सहसा-गारेणं, महत्तरा-गारेणं, सव्व-समाहि-वत्तिया-गारेणं

sahasā-gāreṇaṁ, mahattarā-gāreṇaṁ, savva-samāhi-vattiyā-gāreṇaṁ

वोसिरामि.

vosirāmi.

Navkarshi pratyakhyān

उग्गए सूरे नमुक्कार-सहिअं, मुट्ठि-सहिअं पच्चक्खाइ चउव्विहंपि

uggae sūre namukkāra-sahiaṃ, muṭṭhi-sahiaaṃ paccakkhāi cauvvihampi

आहारं-असणं, पाणं, खाइमं, साइमं अन्नत्थणा-भोगेणं,

āhāraṃ-asaṇaṃ, pāṇaṃ, khāimaṃ, sāimam annatthaṇā-bhogeṇaṃ,

सहसा-गारेणं, महत्तरा-गारेणं, सव्व-समाहि-वत्तिया-गारेणं

sahasā-gāreṇaṃ, mahattarā-gāreṇaṃ, savva-samāhi-vattiyā-gāreṇaṃ

वोसिरामि.

vosirāmi.

Aarti

Aarti – Rishabhdev

जय-जय आरती आदि जिणंदा,

jaya-jaya āratī ādi jiṇandā,

नाभिराया मरुदेवी को नंदा; जय०

nābhirāyā marudevī ko nandāa; jaya0

पहेली आरती पूजा कीजे,

pahelī āratī pūjā kīje,

नरभव पामीने लाहवो लीजे; जय०

narabhava pāmīne lāhavo lije; jaya0

दूसरी आरती दीन-दयाला,

dūsarī āratī dīna-dayālā,

धूलेवा मंडपमां जग अजवाळां; जय०

dhūlevā maṇḍapamām jaga ajavālām; jaya0

तीसरी आरती त्रिभुवन-देवा,

tīsarī āratī tribhuvana-devā,

सुरनर इन्द्र करे तेरी सेवा; जय०

suranara indra kare terī sevā; jaya0

चौथी आरती चउगति चूरे,

cauthī āratī caugati cūre,

मन वांछित फल शिवसुख पूरे. जय०

mana vāñchita phala śivasukha pūre. jaya0

पंचमी आरती पुण्य उपाया,

pañcamī āratī puṇya upāyā,

मूळचन्दे ऋषभ गुण गाया. जय०

mūḷacande ṛṣabha guṇa gāyā. jaya0

Aarti – Mahavir Swami

ॐ जय महावीर प्रभो, स्वमि जय महावीर प्रभो ।

om jaya mahāvīra prabho, svami jaya mahāvīra prabho ।

कुण्डलपुर अवतारी, त्रिशलानन्द विभो ॥ ॐ जय ।

kuṇḍalapura avatārī, triśalānanda vibho । । om jaya ।

सिद्धारथ घर जन्मे, वैभव था भारी ।

siddhāratha ghara janme, vaibhava thā bhārī ।

बाल ब्रह्मचारी ब्रत, पाल्यो तपधारीर्ति ॥ ॐ जय ।

bāla brahmacārī brata, pālyo tapadhārīārti । । om jaya ।

आतम ज्ञान विरागी, समदृष्टी धारी ।

ātama jñāna virāgī, samadr̥ṣṭī dhārī ।

माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी ॥ ॐ जय ।

māyā moha vināśaka, jñāna jyoti jāri । । om jaya ।

जगमें पाठ अहिंसा, आपही विस्तार्यो ।

jagamem pāṭha ahimsā, āpahī vistāryo ।

हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचार्यो ॥ॐ जय ।

himsā pāpa miṭākara, sudharma paricāryo । । om jaya ।

यही विधि चांदनपुरमें, अतिशय दर्शायो ।

yahī vidhi cāndanapuramem, atiśaya darśāyo ।

ग्वाल मनोरथ पुर्यो, दूध गाय पायो ॥ॐ जय ।

gvāla manoratha puryo, dūdha gāya pāyo । । om jaya ।

प्राणदान मन्त्री को, तुमने प्रभु दीना ।

prāṇadāna mantrī ko, tumane prabhu dīnā ।

मन्दिर तीन शिखरका, निर्मित है कीना ॥ॐ जय ।

mandira tīna śikharakā, nirmita hai kīnā । । om jaya ।

जयपुर ऋष भी तेरे, अतिशयके सेवी ।

jayapura ṛṣa bhī tere, atiśayake sevī ।

एक ग्राम तिन दीनो, सेवा हित यह भी ॥ॐ जय ।

eka grāma tina dīno, sevā hita yaha bhī । । om jaya ।

जो कोइ तेरे दर पर, इच्छा कर आवै ।

jo koi tere dara para, icchā kara āvai ।

धन सुत सब कुछ पावै, संकट मिट जावै ॥ॐ जय ।

dhana suta saba kucha pāvai, saṅkaṭa miṭa jāvai । । om jaya ।

निश दिन प्रभु मन्दिरमें, जगमग ज्योति जरै ।

niśa dina prabhu mandiramem, jagamaga jyoti jarai ।

हरि प्रसाद चरणोंमें, आनन्द मोद भरै ॥ॐ जय ।

hari prasāda caraṇommem, ānanda moda bharai । । om jaya ।

Aarti - Panch Parmeshthi (Iha vidhi magal aarati kije)

इह विधि मंगल आरती कीजे

iha vidhi maṅgala āratī kīje

पंच परम पद भज सुख लीजे ॥टेक ॥

pañca parama pada bhaja sukha lije | |ṭeka | |

पहली आरती श्री जिनराजा

pahalī āratī śrī jinarājā

भवदधि-पार-उतार-जिहाजा ॥इह ॥

bhavadadhi-pāra-utāra-jihājā | | iha | |

दुसरि आरती सिद्धन केरी

dusari āratī siddhana kerī

सुमरन करत मिटे भव-फेरी ॥इह ॥

sumarana karata miṭe bhava-phearī | | iha | |

तीजी आरती सूर मुनिंदा

tījī āratī sūra munindā

जनन-मरन-दुख दूर करिंदा ॥इह ॥

janana-marana-dukha dūra karindā | | iha | |

चौथी आरती श्री उवझाया

cauthī āratī śrī uvajhāyā

दर्शन देखत पाप पलाया ॥इह ॥

darśana dekhata pāpa palāyā | | iha | |

पांचमि आरती साधु तिहारी

pāñcami āratī sādhu tihārī

कुमति विनाशन शिव-अधिकारी ॥इह ॥

kumati vināśana śiva-adhikārī | | iha | |

छट्ठी ग्यारह प्रतिमाधारी

chaṭṭhī gyāraha pratimādhārī

श्रावक बंदो आनंद कारी ॥इह ॥

śrāvaka bando ānanda kārī | | iha | |

सातमि आरती श्री जिनवानी

sātami āratī śrī jinavānī

ध्यानत सुरग-मुकति-सुखदानी ॥इह ॥

dhyānata suraga-mukati-sukhadānī | | iha | |

Mangal deevo

दीवा रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो,

dīvā re dīvo prabhu maṅgalika dīvo,

आरती उतारण ने बहु चिरंजीवो.

āratī utāraṇa ne bahu cirañjīvo.

सोहामणो घेर पर्व दीवाळी,

sohāmaṇo ghera parva dīvālī,

अम्बर खेले अमरा वाळी.

ambara khele amarā vālī.

दीपाळ भणे एने कुल अजुवाळी,

dīpāḷa bhaṇe ene kula ajuvālī,

भावे भगते विघन निवारी.

bhāve bhagate vighana nivārī.

दीपाल भणे एणे ए कलिकाळे,

dīpāla bhaṇe eṇe e kalikāḷe,

आरती उतारी राजा कुमारपाळे.

āratī utārī rājā kumārapāḷe.

अम घेर मंगलिक तुम घेर मंगलिक,

ama ghera maṅgalika tuma ghera maṅgalika,

मंगलिक चतुर्विध संघने होजो.

maṅgalika caturvidha saṅghane hojo.

दीवा रे दीवो.

dīvā re dīvo.

Mangalik

Chattari mangalam

चत्तारि मंगलं

cattāri maṅgalaṃ

अरिहंता मंगलं

arihantā maṅgalaṃ

सिद्धा मंगलं

siddhā maṅgalaṃ

साहू मंगलं

sāhū maṅgalaṃ

केवलि पन्नत्तो

kevali pannatto

धम्मो मंगलं ।

dhammo maṅgalaṃ ।

चत्तारि लोगुत्तमा

cattāri loguttamā

अरिहंता लोगुत्तमा

arihantā loguttamā

सिद्धा लोगुत्तमा

siddhā loguttamā

साहू लोगुत्तमा

sāhū loguttamā

केवलि पन्नत्तो

kevali pannatto

धम्मो लोगुत्तमो ।

dhammo loguttamo |
चत्तारि शरणं पवज्जामि
cattāri śaraṇaṃ pavajjāmi
अरिहंते शरणं पवज्जामि
arihante śaraṇaṃ pavajjāmi
सिद्धे शरणं पवज्जामि
siddhe śaraṇaṃ pavajjāmi
साहू शरणं पवज्जामि
sāhū śaraṇaṃ pavajjāmi
केवलि पन्नत्तं
kevali pannattam
धम्मं शरणं पवज्जामि ।
dhammaṃ śaraṇaṃ pavajjāmi |

Mangalam bhagwan veero (Sthulibhadradhya & Kundakundhya)

मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमः प्रभुः ;
maṅgalaṃ bhagavāna vīro, maṅgalaṃ gautamaḥ prabhuḥ ;
मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैनो धर्मोस्तु मंगलम्
maṅgalaṃ sthūlibhadrādyā, jaino dharmostu maṅgalam.
मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमः गणिः ;
maṅgalaṃ bhagavāna vīro, maṅgalaṃ gautamaḥ gaṇiḥ ;
मंगलं कुन्दकुन्दाद्या, जैनो धर्मोस्तु मंगलम्
maṅgalaṃ kundakundādyā, jaino dharmostu maṅgalam.
सर्वं मंगल मांगल्यं, सर्वं कल्याण कारणम्
sarva maṅgala māṅgalyaṃ, sarva kalyāṇa kāraṇam.
प्रधानं सर्वं धर्माणां, जैनं जयति शासनम्
pradhānaṃ sarva dharmāṇāṃ, jainaṃ jayati śāsanam.

Sajjayi

Bahu punya kera

बहु पुण्यकेरा पुंजथी, शुभ देह मानवनो मळ्यो,
bahu puṇyakerā puñjathī, śubha deha mānavano maḷyo,
तोये अरे भवचक्रनो, आंटो नहि एक्के टळ्यो,
toye are bhavacakrano, āṅṭo nahi ekke ṭaḷyo,
सुख प्राप्त करतां सुख टळे छे, लेश ए लक्षे लहो,
sukha prāpta karatām sukha ṭaḷe che, leśa e lakṣe laho,
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, कां अहो राची रहो? ॥१॥
kṣaṇa kṣaṇa bhayaṅkara bhāva maraṇe, kām aho rācī raho? | | 1 | |
लक्ष्मी अने अधिकार वधतां शु वध्युं ते तो कहो?
lakṣmī ane adhikāra vadhatām śu vadhyuṁ te to kaho?
शुं कुटुंब के परिवारथी, वधवापणुं ए नय ग्रहो,
śuṁ kuṭumba ke parivārathī, vadhavāpaṇuṁ e naya graho,
वधवापणुं संसारनुं, नरदेहने हारी जवो,
vadhavāpaṇuṁ saṁsāranuṁ, naradehane hārī javo,
एनो विचार नहीं अहोहो! एक पळ तमने हवो ॥२॥
eno vicāra nahīm ahoho! eka paḷa tamane havo | | 2 | |
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, ल्यो गमे त्यांथी भळे,
nirdoṣa sukha nirdoṣa ānanda, lyo game tyāanthī bhale,
ए दिव्य शक्तिमान जेथी, जंजीरथी नीकळे,
e divya śaktimāna jethī, jañjīrathī nīkaḷe,
पर वस्तुमां नहि मूंझवो, एनी दया मुजने रही,
para vastumāṁ nahi mūñjhavo, enī dayā mujane rahī,
ए त्यागवा सिद्धांत के, पश्चात् दुःख ते सुख नहीं ॥३॥
e tyāgava siḍḍhānta ke, paśchāt duḥkha te sukha nahī | | 3 | |

e tyāagavā siddhānta ke, paścāt duḥkha te sukha nahīm | |3| |

हुं कोण छुं? क्यांथी थयो? शुं स्वरुप छे मारुं खरुं?

huṁ koṇa chuṁ? kyānthī thayo? śuṁ svarupa che māruṁ kharuṁ?

कोना संबंधे वळगणा छे? राखुं के ए परिहरुं?

konā sambandhe vaḷagaṇā che? rākhuṁ ke e pariharuṁ?

एना विचार विवेकपूर्वक, शांत भावे जो कर्या,

enā vicāra vivekapūrvaka, śānta bhāve jo karya,

तो सर्व आत्मिकज्ञाननां सिद्धांत तत्त्व अनुभव्यां ॥४ ॥

to sarva ātmikajñānanām siddhānta tattva anubhavyām | |4| |

ते प्राप्त करवा वचन कोनुं सत्य केवळ मानवुं?

te prāpta karavā vacana konuṁ satya kevaḷa mānavuṁ?

निर्दोष नरनुं कथन मानो, तेह जेणे अनुभव्युं:

nirdoṣa naranuṁ kathana māno, teha jeṇe anubhavyuṁ;

रे! आत्म तारो! आत्म तारो! शीघ्र एने ओळखो,

re! ātma tāro! ātma tāro! śīghra ene oḷakho,

सर्वात्ममां समदृष्टि द्यो, आ वचनो हृदये लखो ॥५ ॥

sarvātmamām samadrṣṭi dyo, ā vacano hṛdaye lakho | |5| |

Samaro mantra

समरो मन्त्र भलो नवकार, ए छे चौद पूरवनो सार.

samaro mantra bhalo navakāra, e che cauda pūravano sāra.

एना महिमानो नहि पार. एनो अर्थ अनन्त अपार. समरो. १

enā mahimāno nahi pāra. eno artha ananta apāra. samaro. 1

सुखमां समरो दुखमां समरो, समरो दिवस ने रात.

sukhamām samaro dukhamām samaro, samaro divasa ne rāta.

जीवतां समरो, मरतां समरो, समरो सौ संग्गाथ. समरो. २

jīvatām samaro, maratām samaro, samaro sau saṅgātha. samaro. 2

जोगी समरे भोगी समरे, समरे राजा-रंक.

jogī samare bhogī samare, samare rājā-raṅka.

देवो समरे दानव समरे, समरे सौ निःशंक. समरो ३

devo samare dānava samare, samare sau niḥśaṅka. samaro 3

अड़सठ अक्षर एना जाणो, अड़सठ तीरथ सार.

aḍasaṭha akṣara enā jāṇo, aḍasaṭha tīratha sāra.

आठ संपदाथी परिमाणो, अडसिद्धि दातार. समरो ४

āṭha sampadāthī parimāṇo, aḍasiddhi dātāra. samaro 4

नव-पद एनां नव निधि आपे, भव भवनां दुःख कापे.

nava-pada enām nava nidhi āpe, bhava bhavanām duḥkha kāpe.

वीर वचनथी हृदये व्यापे, परमात्म पद आपे. समरो. ५

vīra vacanathī hṛdaye vyāpe, paramātama pada āpe. samaro. 5

Maitri bhavnu

जिसने राग-द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया ।

jisane rāga-dveṣa kāmādika, jīte saba jaga jāna liyā ।

सब जीवों को मोक्ष-मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥१॥

saba jīvoṃ ko mokṣa-mārga kā, nispr̥ha ho upadeśa diyā ।।१।।

बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो ।

buddha, vīra, jina, hari, hara, brahmā yā usako svādhīna kaho ।

भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥२॥

bhakti-bhāva se prerita ho yaha, citta usī meṃ līna raho ।।२।।

विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्यभाव रखते हैं ।

viṣayoṃ kī āśā nahīṃ jinake, sām̐yabhāva rakhate haim ।

निज-पर के हित-साधन में जो, निशदिन तत्पर रहते हैं ॥३॥

nija-para ke hita-sādhana meṃ jo, niśadina tatpara rahate haim ।।३।।

स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, विना खेद जो करते हैं ।

svārtha tyāga kī kaṭhina tapasyā, vinā kheda jo karate hai ।

ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुःख समूह को हरते हैं ॥४॥

aise jñānī sādhu jagata ke, duḥkha samūha ko harate haim ।।4।।

रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे ।

rahe sadā satsaṅga unhīm kā, dhyāna unhīm kā nitya rahe ।

उन्हीं जैसी चर्या में यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥५॥

unhīm jaisī caryā meṁ yaha, citta sadā anurakta rahe ।।5।।

नहीं सताऊँ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूँ ।

nahīm satāūṁ kisī jīva ko, jhūṁṭha kabhī nahīm kahā karūṁ ।

परधन वनिता पर न लभाऊँ, संतोषामृत पिया करूँ ॥६॥

paradhana vanitā para na labhāūṁ, santosāmrta piyā karūṁ ।।6।।

अहंकार का भाव न रक्खूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ

ahaṅkāra kā bhāva na rakkhūṁ, nahīm kisī para krodha karūṁ

देख दूसरों की बढती को, कभी न ईर्ष्या-भाव धरूँ ॥७॥

dekha dūsarom kī baḍhatī ko, kabhī na īrṣā-bhāva dharūṁ ।।7।।

रहे भावना एसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ ।

rahe bhāvanā esī merī, sarala satya vyavahāra karūṁ ।

बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूँ ॥८॥

bane jahāṁ taka isa jīvana meṁ, aurom kā upakāra karūṁ ।।8।।

मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे ।

maitrī bhāva jagata meṁ merā, saba jīvom se nitya rahe ।

दीन-दुःखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत वहे ॥९॥

dīna-duḥkhī jīvom para mere, ura se karuṇā srota vahe ।।9।।

दुर्जन-क्रूर-कुमार्गरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवै ।

durjana-krūra-kumārgaratom para, kṣobha nahīm mujhako āvai ।

साम्य-भाव रक्खूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावै ॥१०॥

sāmya-bhāva rakkhūṁ maim una para, aisī pariṇati ho jāvai ।।10।।

गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड आवै ।

guṇī janom̐ ko dekha hṛdaya meṁ, mere prema umaḍa āvai |

बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावै ॥११॥

bane jahāṁṁ taka unakī sevā, karake yaha mana sukha pāvai | |11| |

होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह ना मेरे उर आवै ।

hoūṁ nahīm̐ kṛtaghna kabhī maim̐, droha nā mere ura āvai |

गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावै ॥१२॥

guṇa grahaṇa kā bhāva rahe nita, dṛṣṭi na doṣom̐ para jāvai | |12| |

कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवै या जावै ।

koī burā kaho yā acchā, lakṣmī āvai yā jāvai |

लाखों वर्षों तक जीऊँ या, मृत्यु आज ही आ जावै ॥१३॥

lākhom̐ varṣom̐ taka jīūṁ yā, mṛtyu āja hī ā jāvai | |13| |

अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवै ।

athavā koī kaisā hī bhaya, yā lālaca dene āvai |

तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पावै ॥१४॥

to bhī nyāya mārḡa se merā, kabhī na pada ḍigane pāvai | |14| |

होकर सुख में मग्न न फूले, दुःख में कभी न घबरावै ।

hokara sukha meṁ magna na phūle, duḥkha meṁ kabhī na ghabarāvai |

पर्वत-नदी-श्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावै ॥१५॥

parvata-nadī-śmaśāna bhayānaka, aṭavī se nahīm̐ bhaya khāvai | |15| |

रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढतर बन जावै ।

rahe aḍola akampa nirantara, yaha mana dṛḍhatara bana jāvai |

इष्ट वियोग-अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावै ॥१६॥

iṣṭa viyoga-anīṣṭa yoga meṁ, sahanaśīlatā dikhalāvai | |16| |

सुखी रहै सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावै ।

sukhī rahai saba jīva jagata ke, koī kabhī na ghabarāvai |

वैर-पाप-अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गावै ॥१७॥

vaira-pāpa-abhimāna choḍa jaga, nitya naye maṅgala gāvai | |17| |

घर-घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावै ।

ghara-ghara carcā rahe dharma kī, duṣkṛta duṣkara ho jāvai |

ज्ञान-चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज-जन्म-फल सब पावै ॥१८॥

jñāana-caritra unnata kara apanā, manuja-janma-phala saba pāvai | | 18 | |

ईति भीति व्यापै नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करै ।

īti bhīti vyāpai nahīm jaga meṁ, vṛiṣṭi samaya para huā karai |

धर्मानिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करै ॥१९॥

dharmaniṣṭha hokara rājā bhī, nyāya prajā kā kiyā karai | | 19 | |

रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करै ।

roga marī durbhikṣa na phaile, prajā śānti se jiyā karai |

परम अहिंसा-धर्म-जगत में फैल, सर्व-हित किया करै ॥२०॥

parama ahimsā-dharma-jagata meṁ phaila, sarva-hita kiyā karai | | 20 | |

फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करै ।

phaile prema paraspara jaga meṁ, moha dūra hī rahā karai |

अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करै ॥२१॥

apriya kaṭuka kaṭhōra śabda nahīm, koī mukha se kahā karai | | 21 | |

बन कर सब युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करै ।

bana kara saba yugavīra hṛdaya se, deśonnati rata rahā karai |

वस्तु-स्वरूप-विचार खुशी से, सब दुःख संकट सहा करै ॥२२॥

vastu-svarupa-vicāra khuśī se, saba duḥkha saṅkaṭa sahā karai | | 22 | |

Meri bhavana

जिसने राग-द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया ।

jisane rāga-dveṣa kāmādika, jīte saba jaga jāna liyā |

सब जीवों को मोक्ष-मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥१॥

saba jīvoṁ ko mokṣa-mārga kā, nispr̥ha ho upadeśa diyā | | 1 | |

बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो ।

buddha, vīra, jina, hari, hara, brahmā yā usako svādhīna kaho |

दीन-दुःखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत वहे ॥९॥

dīna-duḥkhī jīvoṃ para mere, ura se karuṇā srota vahe | |9| |

दुर्जन-क्रूर-कुमार्गरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवै ।

durjana-krūra-kumārgaratoṃ para, kṣobha nahīm mujhako āvai |

साम्य-भाव रखूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावै ॥१०॥

sāmya-bhāva rakkhūṃ maim una para, aisī pariṇati ho jāvai | |10| |

गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड आवै ।

guṇī janōṃ ko dekha hṛdaya meṃ, mere prema umaḍa āvai |

बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावै ॥११॥

bane jahāṃ taka unakī sevā, karake yaha mana sukha pāvai | |11| |

होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह ना मेरे उर आवै ।

hoūṃ nahīm kṛtaghna kabhī maim, droha nā mere ura āvai |

गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावै ॥१२॥

guṇa grahaṇa kā bhāva rahe nita, dṛṣṭi na doṣōṃ para jāvai | |12| |

कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवै या जावै ।

koī burā kaho yā acchā, lakṣmī āvai yā jāvai |

लाखों वर्षों तक जीऊँ या, मृत्यु आज ही आ जावै ॥१३॥

lākhōṃ varṣōṃ taka jīūṃ yā, mṛtyu āja hī ā jāvai | |13| |

अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवै ।

athavā koī kaisā hī bhaya, yā lālaca dene āvai |

तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पावै ॥१४॥

to bhī nyāya mārga se merā, kabhī na pada ḍigane pāvai | |14| |

होकर सुख में मग्न न फूले, दुःख में कभी न घबरावै ।

hokara sukha meṃ magna na phūle, duḥkha meṃ kabhī na ghabarāvai |

पर्वत-नदी-श्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावै ॥१५॥

parvata-nadī-śmaśāna bhayānaka, aṭavī se nahīm bhaya khāvai | |15| |

रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढतर बन जावै ।

rahe aḍola akampa nirantara, yaha mana dṛḍhatara bana jāvai |

इष्ट वियोग-अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावै ॥१६ ॥

iṣṭa viyoga-anīṣṭa yoga meṁ, sahanaśīlatā dikhalāvai | | 16 | |

सुखी रहै सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावै ।

sukhī rahai saba jīva jagata ke, koī kabhī na ghabarāvai |

वैर-पाप-अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गावै ॥१७ ॥

vaira-pāpa-abhimāna choḍa jaga, nitya naye maṅgala gāvai | | 17 | |

घर-घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावै ।

ghara-ghara carcā rahe dharma kī, duṣkṛta duṣkara ho jāvai |

ज्ञान-चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज-जन्म-फल सब पावै ॥१८ ॥

jñāna-caritra unnata kara apanā, manuja-janma-phala saba pāvai | | 18 | |

ईति भीति व्यापै नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करै ।

īti bhīti vyāpai nahīm jaga meṁ, vṛiṣṭi samaya para huā karai |

धर्मानिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करै ॥१९ ॥

dharmaniṣṭha hokara rājā bhī, nyāya prajā kā kiyā karai | | 19 | |

रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करै ।

roga marī durbhikṣa na phaile, prajā śānti se jiyā karai |

परम अहिंसा-धर्म-जगत में फैल, सर्व-हित किया करै ॥२० ॥

parama ahimsā-dharma-jagata meṁ phaile, sarva-hita kiyā karai | | 20 | |

फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करै ।

phaile prema paraspara jaga meṁ, moha dūra hī rahā karai |

अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करै ॥२१ ॥

apriya kaṭuka kaṭhora śabda nahīm, koī mukha se kahā karai | | 21 | |

बन कर सब युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करै ।

bana kara saba yugavīra hṛdaya se, deśonnati rata rahā karai |

वस्तु-स्वरूप-विचार खुशी से, सब दुःख संकट सहा करै ॥२२ ॥

vastu-svarupa-vicāra khuśī se, saba duḥkha saṅkaṭa sahā karai | | 22 | |

Ratnakar pachchishee

मन्दिर छो मुक्ति तणा मांगल्य क्रीडाना प्रभु,

mandiara cho mukti taṇā māṅgalya krīḍānā prabhu,

ने इन्द्र ने नर देवता सेवा करे तारी विभु;

ne indra ne nara devatā sevā kare tāri vibhu;

सर्वज्ञ छो स्वामी वळी, शिरदार अतिशय सर्वना

sarvajña cho svāmī vaḷī, śiradāra atīśaya sarvanā

घणु जीव तुं, घणु जीव तुं, भंडार ज्ञान कळा तणा ॥१॥

ghaṇu jīva tuṁ, ghaṇu jīva tuṁ, bhaṇḍāra jñāna kaḷā taṇā | | 1 | |

त्रण जगतना आधार ने, अवतार हे करुणा तणा

traṇa jagatanā ādhāra ne, avatāra he karuṇā taṇā

वळी वैद्य हे दुर्वार आ संसार दुःखो तणा;

vaḷī vaidya he durvāra ā saṁsāra duḥkho taṇā;

वीतराग वल्लभ विश्वना, तुज पास अरजी उच्चरु,

vīetarāga vallabha viśvanā, tuja pāsa arajī uccaru,

जाणो छतां पण कही अने, आ हृदय हुं खाली करुं ॥२॥

jāṇo chatāṁ paṇa kahī ane, ā hṛdaya huṁ khālī karuṁ | | 2 | |

शुं बाळको मा बाप पासे, बाल क्रीडा नव करे?

śuṁ bāḷako mā bāpa pāse, bāla krīḍā nava kare?

ने मुखमाथी जेम आवे, तेम शुं नव उचरे?

ne mukhamāthī jema āve, tema śuṁ nava uccare?

तेमज तमारी पास तारक, आज भोळा भावथी,

temaja tamārī pāsa tāraka, āja bhoḷā bhāvathī,

जेवुं बन्युं तेवुं कहुं, तेमा कशुं खोटुं नथी ॥३॥

jevum̐ banyum̐ tevum̐ kahum̐, temā kaśum̐ khoṭum̐ nathī

| | 3 | |

में दान तो दीधुं नहि ने, शियळ पण पाळ्युं नहि

mem dāna to dīdhum nahi ne, śiyala paṇa pālyum nahi

तपथी दमी काया नहि, शुभ भाव पण भाव्यो नहि;

tapathī damī kāyā nahi, śubha bhāva paṇa bhāvyo nahi;

ए चार भेदे धर्ममांथी, कांइ पण प्रभु नव कर्तुं,

e cāra bhede dharmamānthī, kāṅi paṇa prabhu nava karyu,

मारुं भ्रमण भवसागरे, निष्फळ गयुं! निष्फळ गयुं!

॥ ४ ॥

mārum bhramaṇa bhavasāgare, niṣphaḷa gayum! niṣphaḷa gayum!

॥ 4 ॥

हुं क्रोध अग्निथी बळ्यो, वळी लोभ सर्प डस्यो मने,

hum krodha agnithī baḷyo, vaḷī lobha sarpa ḍasyo mane,

गळ्यो मानरुपी अजगरे, हुं केम करी ध्याउं तने?

gaḷyo mānarupī ajagare, hum kema karī dhyāum tane?

मन मारुं माया जाळमां, मोहन! महा मुंजाय छे,

mana mārum māyā jāḷamāṁ, mohana! mahā muñjāya che,

चडी चार चोरो-हाथमां, चेतन घणो चगदाय छे.

॥ ५ ॥

caḍī cāra coro-hāthamāṁ, cetana ghaṇo cagadāya che.

॥ 5 ॥

में परभवे के आ भवे पण, हित कांई कर्तुं नहि,

mem parabhave ke ā bhave paṇa, hita kāṅi karyum nahi,

तेथी करी संसारमां सुख, अल्प पण पाम्यो नहि,

tethī karī saṁsāramāṁ sukha, alpa paṇa pāmyo nahi,

जन्मो अमारा जिनजी! भव पूर्ण करवाने थया,

janmo amārā jinajī! bhava pūrṇa karavāne thayā,

आवेल बाजी हाथमां, अज्ञानथी हारी गयो.

॥ ६ ॥

āvela bājī hāthamāṁ, ajñānathī hārī gayo.

॥ 6 ॥

अमृत झरे तुज मुखरूपी, चंद्रथी तो पण प्रभु,

amṛata jharee tuja mukharupī, candrathī to paṇa prabhu,

भींजाय नहि मुज मन अरेरे! शुं करुं हुं तो विभु?

bhīñjāya nahi muja mana arere! śuṃ karuṃ huṃ to vibhu?

पत्थर थकी पण कठण मारुं, मन खरे क्यांथी द्रवे?

patthara thakī paṇa kaṭhaṇa māruṃ, mana khare kyānthī drave?

मरकट समा आ मनथकी, हुं तो प्रभु हार्यो हवे . ॥७॥

marakaṭa samā ā manathaikī, huṃ to prabhu hāryo have . ॥ 7 ॥

भमता महा भव सागरे, पाम्यो पसाये आपना

bhamatā mahā bhava sāgare, pāmyo pasāye āpanā

ते ज्ञान दर्शन चरणरूपी रत्नत्रय दुष्कर घणा;

te jñāna darśana caraṇarupī ratnatraya duṣkara ghaṇā;

ते पण गया प्रमादना, वशथी प्रभु! कहुं छुं खरुं;

te paṇa gayā pramādanā, vaśathī prabhu! kahuṃ chuṃ kharuṃ;

कोनी कने किरतार आ, पोकार हुं जइने करुं? ॥८॥

konī kane kiratāra ā, pokāra huṃ jaine karuṃ? ॥ 8 ॥

ठगवा विभु आ विश्वने वैराग्यना रंगो धर्या

ṭhagavā vibhu ā viśvane vairāgyanā raṅgo dharyā

ने धर्मना उपदेश रंजन लोकने करवा कर्या;

ne dharmanā upadeśa rañjana lokane karavā karyā;

विद्या भण्यो हुं वाद माटे, केटली कथनी कहुं?

vidyā bhaṇyo huṃ vāda māṭe, keṭalī kathanī kahuṃ?

साधु थइने बहारथी, दांभिक अंदरथी रहुं ॥ ९ ॥

sādhu thaine bahārathī, dāmbhika andarathī rahuṃ ॥ 9 ॥

में मुखने मेलुं कर्युं, दोषो पराया गाइने,

meṃ mukhane meluṃ karyuṃ, doṣo parāyā gāine,

ने नेत्रने निंदित कर्या, परनारीमां लपटाइने,
ne netrane nindita karyām, paranārīmām lapaṭāine,
वळी चित्तने दोषित कर्यु, चिंती नठारुं परतणुं
vaḷī cittane doṣita karyu, cintī naṭhāruṃ parataṇuṃ
हे नाथ मारुं शुं थशे, चालाक थइ चुक्यो घणुं ॥१० ॥
he nātha māruṃ śuṃ thaśe, cālāka thai cukyo ghaṇuṃ | | 10 | |

करे काळजाने कतल पीडा कामनी बीहामणी,
kare kāḷajāne katala pīḍā kāmanī bīhāmaṇī,
ए विषयमां बनी अंध हुं, विडंबना पाम्यो घणी;
e viṣayamām banī andha huṃ, viḍambanā pāmyo ghaṇī;
ते पण प्रकाश्युं आज लावी लाज आपतणी कने;
te paṇa prakāśyumuṃ āja lāvī lāja āpataṇī kane;
जाणो सहु तेथी कहुं, कर माफ मारा वांकने ॥११ ॥
jāṇo sahu tethī kahumuṃ, kara māpha mārā vāṅkane | | 11 | |

नवकार मंत्र विनाश कीधो,अन्य मंत्रो जाणीने,
navakāra mantra vināśa kīdho,anya mantro jāṇīne,
कुशास्त्रनां वाक्यो वडे, हणी आगमोनी वाणीने
kuśāstranām vākya vade, haṇī āgamonī vāṇīne
कुदेवनी संगत थीकी, कर्मो नकामां आचर्या,
kudevanī saṅgata thakī, karmoṃ nakāmām ācaryām,
मतिभ्रम थीकी रत्नो गुमावी काच कटका में ग्रह्या ॥१२ ॥
matibhrama thakī ratno gumāvī kāca kaṭakā meṃ grahyā | | 12 | |
आवेल द्रष्टिमार्गमां, मूकी महावीर आपने,
āvela draṣṭimārgamām, mūkī mahāvīra āpane,
में मूढधीए हृदयमां, ध्याया मदनना चापने
meṃ mūḍhadhīe hṛdayamām, dhyāyā madananā cāpane

में नेत्रबाणो ने पयोधर नाभी ने सुंदर कटी

mem netrabāṇo ne payodhara nābhī ne sundara kaṭī

शणगार सुंदरीयो तणां, छटकेल थइ जोया घणा ॥१३॥

ṣaṇagāra sundarīyo taṇām, chaṭakela thai joyā ghaṇā | | 13 | |

मृगनयनी सम नारी तणा मुखचंद्र नीरखावती

mṛganayanī sama nārī taṇā mukhacandra nīrakhāvati

मुज मन विषे जे रंग लाग्यो अल्प पण गाढो अति,

muja mana viṣe je raṅga lāgyo alpa paṇa gāḍho ati,

ते श्रुत रूप समुद्रमां, धोया छतां जातो नथी,

te śruta rupa samudramām, dhoyā chatām jāto nathī,

तेनुं कहो कारण तमे, बचुं केम हुं आ पापथी ॥१४॥

tenuṁ kaho kāraṇa tame, bacuṁ kema huṁ ā pāpathī | | 14 | |

सुंदर नथी आ शरीर के समुदाय गुणतणो नथी

sundara nathī ā śarīra ke samudāya guṇataṇo nathī

उत्तम विलास कळातणो, देदीप्यमान प्रभा नथी

uttama vilāsa kaḷātaṇo, dedīpyamāna prabhā nathī

प्रभुता नथी तो पण प्रभु, अभिमानथी अक्कड फरुं

prabhutā nathī to paṇa prabhu, abhimānathī akkaḍa pharuṁ

चोपाट चार गतितणी संसारमां खेल्या करुं ॥१५॥

copāṭa cāra gatitaṇī saṁsāramām khelyā karuṁ | | 15 | |

आयुष्य घटतुं जाय छे, पण पापबुद्धि नव घटे

āyuṣya ghaṭatum jāya che, paṇa pāpabuddhi nava ghaṭe

आशा जीवननी जाय पण, विषयाभिलाषा नव मटे;

āsā jīvananī jāya paṇa, viṣayābhilāṣā nava maṭe;

औषध विशे करुं यत्न पण, हुं धर्मने तो नव गणुं

auṣadha viṣe karuṁ yatna paṇa, huṁ dharmane to nava gaṇuṁ

बनी मोहमां मस्तान हुं, पाया विनाना घर चणुं ॥१६॥

banī mohamām mastāna huṁ, pāyā vinānā ghara caṇuṁ ||16||

आत्मा नथी परभव नथी, वळी पुण्य पाप कशुं नथी,

ātmā nathī parabhava nathī, vaḷī puṇya pāpa kaśuṁ nathī,

मिथ्यात्वीनी कटु वाणी में, धरी कान पीधी स्वादथी;

mithyātvīanī kaṭu vāṇī meṁ, dharī kāna pīdhī svādathī;

रविसम हता ज्ञाने करी, प्रभु आपश्री तो पण अरे,

ravisama hatā jñāne karī, prabhu āpaśrī to paṇa are,

दीवो लइ कुवे पड्यो, धिक्कार छे मुजने खरे ॥१७॥

dīvo lai kuve paḍyo, dhikkāra che mujaene khare ||17||

में चित्तथी नहि देवनी के, पात्रनी पूजा चही,

meṁ cittathī nahi devanī ke, pātranī pūjā cahī,

ने श्रावको के साधुनो धर्म पण पाळ्यो नहि;

ne śrāvako ke sādhuano dharmā paṇa pālyo nahi;

पाम्यो प्रभु नरभव छातां रणमां रडया जेवुं थयुं,

pāmyo prabhu narabhava chatām raṇamām raḍayā jevuṁ thayuṁ,

धोबीतणा कुत्तासमुं, मम जीवन सह एळे गयुं ॥१८॥

dhobītaṇā kuttāsamuṁ, mama jīvana sahu eḷe gayuṁ ||18||

हुं कामधेनु कल्पतरु चिंतामणिना प्यारमां,

huṁ kāmadhenu kalpataru cintāmaṇinā pyāramām,

खोटा छातां झंख्यो घणुं, बनी लुब्ध आ संसारमां;

khotaṭā chatām jhaṅkhyo ghaṇuṁ, banī lubdha ā saṁsāramām;

जे प्रगट सुख देनार तारो धर्म में सेव्यो नहि,

je pragata sukha denāra tāro dharmā meṁ sevyo nahi,

मुज मूर्ख भावोने निहाळी नाथ! कर करुणा कंइ! ॥१९॥

muja mūrkhā bhāvone nihāḷī nātha! kara karuṇā kaṁi! ||19||

में भोग सारा चिंतव्या ते रोग सम चिंत्या नहि

mem bhoga sārā cintavyā te roga sama cintyā nahi

आगमन इच्छुं धनतणुं, पण मृत्युने प्रीछुं नहि;

āgamana icchium dhanataṇum, paṇa mṛtyune prīchium nahi;

नहि चिंत्यवुं में नर्क-कारागृह समी छे नारीओ,

nahi cintyavum mem narka-kārāgrha samī che nārīo,

मधुबिंदुनी आशा महीं, भय मात्र हुं भूली गयो . ॥२०॥

madhubindunī āśā mahīm, bhaya mātra hum bhūlī gayo . || 20 ||

हुं शुद्ध आचारो वडे, साधु हृदयमां नव रह्यो,

hum śuddha ācāro vaḍe, sādhu hṛdayamām nava rahyo,

करी काम पर उपकारना, यश पण उपार्जन नव कर्यो;

karī kāma para upakāranā, yaśa paṇa upārjana nava karyo;

वळी तीर्थना उद्धार आदि कोइ कार्यो नव कर्या,

vaḷī tīrthanā uddhāra ādi koi kāryo nava karyām,

फोगट अरे! आ लक्ष-चोरासी तणा फेरा फर्या . ॥२१॥

phogaṭa are! ā lakṣa-corāsī taṇā pherā pharyā . || 21 ||

गुरु वाणीमां वैराग्य केरो रंग लाग्यो नहि मने,

guru vāṇīmām vairāgya kero raṅga lāgyo nahi mane,

दुर्जनतणा वाक्यो महीं शांति मने क्यांथी मळे?

durjanataṇā vākya mahīm śānti mane kyānthī maḷe?

तरुं केम हुं संसार आ? अध्यात्म तो छे नहि जरी,

tarum kema hum saṁsāra ā? adhyātma to che nahi jarī,

तूटेल तळीयानो घडो, जळथी भराये केम करी ? ॥२२॥

tūṭela taḷiyāno ghaḍo, jaḷathī bharāye kema karī ? || 22 ||

में परभवे नथी पुण्य कीधुं, ने नथी करतो हजी,

mem parabhave nathī puṇya kīdhum, ne nathī karato haji,
तो आवता भवमां कहो, कयांथी थशे हे नाथजी?

to āvatā bhavamām kaho, kayānthī thaśe he nāthajī?

भूत-भावि ने सांप्रत त्रणे, भव नाथ हुं हारी गयो,

bhūta-bhāvi ne sāmprata traṇe, bhava nātha hum hārī gayo,

स्वामी त्रिशंकु जेम हुं आकाशमां लटकी रह्यो ॥२३॥

svāmī triśaṅku jema hum ākāśamām laṭakī rahyo ॥ 23 ॥

अथवा नकामुं आप पासे, नाथ शुं बकवुं घणुं

athavā nakāmum āpa pāse, nātha śum bakavum ghaṇum

हे देवताना पूज्य! आ, चारित्र मुज पोता तणुं;

he devatānā pūjya! ā, cāritra muja potā taṇum;

जाणो स्वरुप त्रण लोकनुं, तो माहरुं शुं मात्र आ,

jāṇo svarupa traṇa lokanum, to māharum śum mātra ā,

ज्यां क्रोडनो हिसाब नहि त्यां पाइनी तो वात क्यां?. ॥२४॥

jiyām kroḍano hisāba nahi tyām pāinī to vāta kyām?. ॥ 24 ॥

तहारथी न समर्थ अन्य दीननो, उद्धारनारो प्रभु!

thārāthī na samartha anya dīnano, uddhāranāro prabhu!

म्हारथी नहि अन्य पात्र जगमां, जोतां जडे हे विभु!

mhārāthī nahi anya pātra jagamām, jotām jaḍe he vibhu!

मुक्तिमंगळ स्थान! तोय मुजने इच्छा न लक्ष्मी तणी,

muktimaṅgaḷa sthāna! toya mujane icchā na lakṣmī taṇī,

आपो सम्यक् रत्न शाम जीवने तो तृप्ति थाये घणी! ॥२५॥

āpo samyak ratna śāma jīvane to tṛpti thāye ghaṇī! ॥ 25 ॥

Nityakram (Anusthan to Start and End the day)

Prabhaat vidhi

१) सवारे उठतां सात नवकार महामंत्र भणवा

1) savāre uṭhatām sāta navakāra mahāmantra bhaṇavā

२) इशान खुणा सन्मुख सीमंधर स्वामीने त्रणवार वन्दन करी प्रार्थना करवी । हे परमतारक

देवाधिदेव प्रभो, अनादि काळथी आजसुधी अनंता भवोमां मारा जीवे जे काइं हिंसा, झुठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, रग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति-

अरति, मायामोसो अने मिथ्यादर्शन शल्य ए अढार पापस्थानको सेवन कर्यां होय, कराव्या होय,

करताने अनुमोदन आप्यां होय अने अनेक जे काइं वीतराग परमात्मानी आज्ञाविरुद्ध आचरण कर्युं,

कराव्युं अने अनुमोद्युं होय तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छा मि दुक्कडम्

2) isāna khuṇā sanmukha sīmandhara svāmīne traṇavāra vandana karī prārthanā karavī | he paramatāraka devādhideva prabho, anādi kālathī

ājasudhī anantā bhavomām mārā jīve je kām himsā, jhuṭha, corī, maithuna, parigraha, krodha, māna, māyā, lobha, raga, dveṣa, kalaha,

abhyākhyāna, paśunya, paraparivāda, rati-arati, māyāmoso ane

mithyādarśana śalya e aḍhāra pāpasthānako sevana karyām hoyā,

karāvya hoyā, karatāne anumodana āpyām hoyā ane aneka je kām

vītarāga paramātmānī ājñāviruddha ācaraṇa karyuṃ, karāvyaum ane

anumodyuṃ hoyā to trividhe trividhe micchā mi dukkaḍam

३) हे प्रभो! पूर्वे अनंता भवोमां मारा जीवे श्री अरिहन्त देवोनी, गुरु भगवन्तोनी तथा जैन धर्मनी

विराधना करी होय, अशातना करी होय, सूत्र विरुद्ध प्ररुपणा करी होय तो तस्स मिच्छा मि

दुक्कडम् । हे प्रभो आपनी भक्तिना प्रभावे मने श्री सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररुप रत्ननी प्राप्ति थाओ ।

भवोभव आपना चरणनी सेवा मळे, जेना प्रतापे हुं जिनाज्ञा अनुसार आराधना करवा पूर्वक कर्मोनी

नाश करी मोक्ष सुख प्राप्त करुं । हे प्रभो आपनी कृपाथी मने एवी शक्ति प्राप्त थाओ, जे द्वारा हुं मारां

कर्तव्यो, नीति, न्याय, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अने अपरिग्रह व्रतोनुं पालन करी शकुं ।

प्राणीमात्र प्रत्ये मैत्री, प्रमोद, करुणा अने माध्यस्थ भावनाओ राखुं । सर्वथा सह सुखी थाओ, पाप

न कोई आचरो । रागद्वेषथी मुक्त थईने मोक्षसुखनी सवने प्राप्ति थाओ ।

3) he prabho! pūrve anantā bhavomām mārā jīve śrī arihanta devonī, guru bhagavantonī tathā jaina dharmanī virādhanā karī hoyā, aśātanā karī hoyā, sūtra viruddha prarupaṇā karī hoyā to tassa micchā mi dukkaḍam । he prabho āpanī bhaktinā prabhāve mane śrī samyagdarśana, jñāna, cāritrarupa ratnanī prāpti thāo । bhavobhava āpanā caraṇanī sevā maḷe, jenā pratāpe huṃ jinājñā anusāra ārādhanā karavā pūrvaka karmono nāśa karī mokṣa sukha prāpta karuṃ । he prabho āpanī kṛpāthī mane evī śakti prāpta thāo, je dvārā huṃ mārām kartavyo, nīti, nyāya, ahimsā, satya, acaurya, brahmacarya, ane aparigraha vratonuṃ pālana karī śakuṃ । prāṇīmātra pratye maitrī, pramoda, karuṇā ane mādhyastha bhāvanāo rākhuṃ । sarvathā sahu sukhī thāo, pāpa na koī ācaro । rāgadveṣathī mukta thāine mokṣasukhanī sarvane prāpti thāo ।

Nidra vidhi

सात वार नवकार मंत्र गणीने नीचे प्रमाणे प्रार्थना करवी ।

sāta vāra navakāra mantra gaṇīne nīce pramāṇe prārthanā karavī ।

श्री अरिहन्त देवोनुं शरण अंगीकार करुं छुं । श्री सिद्ध परमात्माओनुं शरण अंगीकार करुं छुं । सर्व साधु सध्वीओनुं शरण अंगीकार करुं छुं । केवली प्ररुपित धर्मनुं शरण अंगीकार करुं छुं । "एगो मे सासओ अप्पा; नाणदंसण संजुओ, सेसा मे बाहिरा भावा, सव्व संजोग लख्खणा" एक मारो आत्मा शाश्वत छे । ज्ञानदर्शन मारा गुणो छे, ते सिवाय बधा पौद्गलिक संजोगो संबंध, धन, स्त्री, कुटुंब वगैरे आत्माथी जुदा छे । तेमांथी कोइ पण साथे आवशे नहि । फक्त श्री जिनेश्वरदेवनो धर्म ज साथे आवशे । "आहार शरीरने उपधि, पच्चक्खुं पाप अटार, मरण आवे तो जाव जीव, जीवुं तो आगार ।" आज दिवस सुधी मारा जीवे जे कांइ पुद्गलो ग्रहण करीने मूक्या होय तेने त्रिविधे त्रिविधे वोसिरावुं छुं ।

śrī arihanta devonuṃ śaraṇa aṅgīkāra karuṃ chuṃ । śrī siddha paramātmāonuṃ śaraṇa aṅgīkāra karuṃ chuṃ । sarva sādhu sadhvīonuṃ śaraṇa aṅgīkāra karuṃ chuṃ । kevalī prarupita dharmanuṃ śaraṇa

aṅgīkāra karuṁ chuṁ | "ego me sāsao appā; nāṇadaṁsaṇa sañjuo, sesā me bāhirā bhāvā, savva sañjoga lakhkhaṇā" eka māro ātmā śāśvata che | jñānadarśana mārā guṇo che, te sivāya badhā paudgalika sañjogo sambandha, dhana, strī, kuṭumba vagere ātmāthī judā che | temānthī koi paṇa sāthe āvaśe nahi | phakta śrī jineśvaradevano dharmā ja sāthe āvaśe | "āhāra śarīrane upadhi, paccakkhuṁ pāpa aḍhāra, maraṇa āve to jāva jīva, jīvuṁ to āgāra | " āja divasa sudhī mārā jīve je kāṁi pudgalo grahaṇa karīne mūkyā hoyā tene trividhe trividhe vosirāvumuṁ chuṁ |

हे जगद्वत्सल, भवचक्रमां आजदिन पर्यन्त मारा जीवे आपश्रीनी आज्ञानुसारनुं जे कोई आराधन कर्युं होय, कराव्युं होय, करताने अनुमोदन कर्युं होय तेनुं हुं त्रिविधे त्रिविधे अनुमोदन करुं छुं ।

he jagadvatsala, bhavacakramām ājadina paryanta mārā jīve āpaśrīnī ājñānusāranuṁ je koī ārādhana karyuṁ hoyā, karāvyyuṁ hoyā, karatāne anumodana karyuṁ hoyā tenuṁ huṁ trividhe trividhe anumodana karuṁ chuṁ |

हुं सर्वे जीवोने क्षमा आपुं छुं । सर्व जीवो मने मारा सर्व अपराधोनी क्षमा आपो । सिद्ध परमात्मानी साक्षीए हुं आलोचना करुं छुं । मारे कोई साथे वेर विरोध नथी । चौद राजलोकमां परिभ्रमण करतां सर्व जीवो कर्मवश छे, ते सर्वेने खमाव्या छे, ते सर्वे मने खमावे । मनथी, वचनथी अने कायाथी जे जे पाप कर्या होय ते मिथ्या दुष्कृत थाओ (नाश पामो) ॐ शांति शांतिः ।

huṁ sarve jīvone kṣamā āpuṁ chuṁ | sarva jīvo mane mārā sarva aparādhonī kṣamā āpo | siddha paramātmānī sāksīe huṁ ālocanā karuṁ chuṁ | māre koī sāthe vera virodha nathī | cauda rājalokamām paribhramaṇa karatām sarva jīvo karmavaśa che, te sarvene khamāvyā che, te sarve mane khamāve | manathī, vacanathī ane kāyāthī je je pāpa karyā hoyā te mithyā duṣkṛta thāo (nāśa pāmo) om śānti śāntiḥ |